

## Vocabulaire Hin1 01

Fiche	Hindi	Translittération	Traduction	type
9	अंग	aṅga	membre, partie du corps	n.m.
12	अंगूर	aṅgūr	raisin	n.m.
12	अंजीर	aṅjīr	figue, figuier	n.m.
9	अंत	anta	fin, bout, extrémité, limite	n.m.
8	अंतिम	antim	dernier, final, ultime	adj.
2	अंदर	andar	à l'intérieur, dedans	adv.
8	अंदर आना	andar ānā	entrer, pénétrer	vb. int.
15	अंधा	andhā	aveugle, borné, irrationnel	adj.
15	अंधा	andhā	aveugle	n.m.
15	अंधाधुँध	andhādhūḍha	à l'aveuglette, de façon irréfléchie	adj.
15	अंधाधुँध	andhādhūḍha	à l'aveuglette, de façon irréfléchie	adv.
15	अंधापन	andhāpan	cécité	n.m.
10	अँधेरा	ādherā	sombre, obscur	adj.
10	अँधेरा	ādherā	obscurité, ténèbres	n.m.
14	अक्ल	aqal	intelligence	n.f.
14	अक्लमंद	aqalmand	intelligent	adj.
18	अकल्पनीय	akalpnīya	inimaginable	adj.
4	अक्सर	aksar	souvent, généralement	adv.
18	अकाल	akāl	prématué, inopportun, hors de saison	adj.
4	अकेला	akelā	seul, isolé	adj.
4	अकेलापन	akelāpan	solitude, isolement	n.m.
9	अखबार	akhbār	journal	n.m.
12	अखरोट	akhrot	noix, noyer	n.m.
5	अगला	aglā	suivant, futur, prochain	adj.
14	अग्नि	agni	feu	n.f.

8	<b>अचानक</b>	acānak	soudainement, à l'improviste	adv. tps
1	<b>अच्छा</b>	acchā	bon, bien	adj.
9	<b>अच्छा लगना (किसी को)</b>	acchā lagnā	aimer bien	vb. tr.
3	<b>अट्ठाईस</b>	aṭṭhāś	vingt huit	nombre 028
10	<b>अट्ठानवे</b>	aṭṭhānave	quatre-vingt dix-huit	nombre 098
7	<b>अट्ठावन</b>	aṭṭhāvan	cinquante huit	nombre 058
9	<b>अठहत्तर</b>	aṭhahattar	soixante dix-huit	nombre 078
2	<b>अठारह</b>	aṭhārah	dix-huit	nombre 018
9	<b>अठासी</b>	aṭhāsī	quatre-vingt huit	nombre 088
5	<b>अड़तालीस</b>	aṛṭālīś	quarante huit	nombre 048
4	<b>अड़तीस</b>	aṛṭīś	trente huit	nombre 038
8	<b>अड़सठ</b>	aṛṣath	soixante huit	nombre 068
18	<b>अतल</b>	atal	sans fond, insondable	adj.
7	<b>अदरक</b>	adrak	gingembre frais	n.f.
13	<b>अधिक</b>	adhib	davantage, en plus	adv.
11	<b>अधिकार</b>	adhibkār	droit, autorité, maîtrise	n.m.
1	<b>अध्यापक</b>	adhyāpaka	enseignant, professeur	n.m.
1	<b>अध्यापिका</b>	adhyāpikā	enseignante, professeure	n.f.
18	<b>अनकहा</b>	ankahā	non-dit, implicite, sous-entendu	adj.
17	<b>अनचाहा</b>	ancāhā	non désiré	adj.
18	<b>अनपढ</b>	anparh	illettré	adj.
18	<b>अनसुना</b>	ansunā	non entendu, nouveau, inouï	adj.
8	<b>अनाज</b>	anāj	grain, céréale	n.m.
12	<b>अनार</b>	anār	grenade	n.m.
18	<b>अनुकरण</b>	anukaraṇ	imitation, émulation, mimique	n.m.
18	<b>अनुकाल</b>	anukāl	opportun	adj.
18	<b>अनुकूल</b>	anukūl	favorable, en accord, bien adapté	adj.
18	<b>अनुक्रम</b>	anukram	séquence, succession, suite	n.m.

18	अनुगृज	anugūřja	écho	n.f.
22	अनुपस्थित	anupasthit	absent	adj.
22	अनुपस्थिती	anupasthitī	absence	n.f.
16	अनुभव		expérience	n.m.
18	अनुमति	anumati	permission, accord, approbation	n.f.
18	अनुवाद	anuvād	traduction	n.m.
18	अनुवादक	anuvādak	traducteur	n.m.
18	अनुवादित	anuvādit	traduit	adj.
18	अनुवाद्य	anuvādya	traduisible	adj.
5	अनोखा	anokhā	spécial, étrange, merveilleux	adj.
16	अपनाना	apnānā	adopter, s'approprier	vb. tr.
17	अपने आप	apne-āp	de soi-même, tout seul	adv.
16	अपरद्धी	aparadhī	criminel	n.m.
13	अपेक्षाकृत	apeksākrit	comparativement	adv.
1	अब	ab	maintenant	adv. tps.
10	अब जाकर	ab jākar	enfin	loc. adv
6	अब तक	ab tak	jusqu'à maintenant	loc. adv
6	अब से	ab se	à partir de maintenant	loc. adv
14	अभाव	abhāv	manque, absence, lacune	n.m.
10	अभिनेता	abhineta	acteur	n.m.
10	अभिनेत्री	abhinetrī	actrice	n.f.
5	अभी	abhī	tout de suite, immédiatement	adv.tps
16	अभ्यास	abhyās	exercice, pratique	n.m.
12	अमरुद	amarūd	goyave	n.m.
13	अमीर	amīr	riche, fortuné	adj.
13	अमीर	amīr	riche (ou titre honorifique)	n.m.
18	अमूल्य	amūlya	sans prix, inestimable, précieux, gratuit	adj.
20	अर्थ	artha	signification, sens, richesse, biens	n.m.

20	अर्थव्यवस्था	arthavyavasthā	économie (système économique)	n.f.
20	अर्थशास्त्र	arthaśāstra	sciences économiques, traité d'économie	n.m.
15	अलग	alag	séparé, isolé, distinct, mis à part	adj.
15	अलग करना	alag karnā	séparer, isoler	vb. tr.
15	अलग होना	alag honā	être séparé, isolé	vb. int.
15	अवगुण	avgun	défaut, vice, faute	n.m.
11	अवसर	avasar	occasion, opportunité	n.m.
14	अवसरवाद	avasarvād	opportunisme	n.m.
12	अविवाहित	avivāhit	non marié, célibataire	adj.
18	असंतुष्ट	asantuṣṭa	insatisfait, mécontent, chagriné	adj.
18	असंभव	asambhava	impossible, improbable	adj.
23	असमर्थ	asamartha	incapable, incompétent	adj.
22	असल	asal	vrai, réel, authentique	adj.
22	असली	asalī	vrai, réel, authentique	adj.
22	असहमत	asahamat	en désaccord	adj.
22	असलियत	asaliyat	authenticité, vérité	n.f.
22	असहमति	asahamati	désaccord	n.f.
18	अस्थिर	asthir	instable, remuant, déséquilibré	adj.
19	अस्वीकार	asvīkār	rejet, refus, non acceptation	n.m.
9	अस्सी	assī	quatre-vingt	nombre 080
22	अहम	aham	important, significatif	adj.
22	अहमियत	ahamiyat	importance	n.f.
14	आँकड़ा	ākaṛā	chiffre, statistique	n.m.
8	आँख	ākh	œil, vue, vision, regard	n.f.
14	आँगन	āgan	cour intérieure (de la maison)	n.m.
20	आंदोलन	āndolan	agitation, lutte, mouvement (contre)	n.m.
23	आँसू	āsū	larme	n.m.
3	आईना	āinā	miroir, glace	n.m.

16	आकर्षक	ākarṣk	attractif, séduisant	adj.
21	आकार	ākār	forme, taille, dimension	n.m.
13	आकाश	ākāś	ciel, espace	n.m.
8	आखिर	ākhīr	finalement, enfin	adv. tps
8	आखिर	ākhīr	fin	n.m.
8	आखिरी	ākhīrī	dernier, final, extrême	adj.
12	आगे	āge	devant, en avant, plus tard	adv.
1	आज	āj	aujourd'hui	adv. tps.
4	आजकल	ājkal	actuellement, en ce moment	adv. tps.
12	आजमाना	āzmānā	tester, examiner, essayer	vb. tr.
14	आजाद	āzād	libre, indépendant, autonome	adj.
14	आजादी	āzādī	liberté, indépendance	n.f.
22	आज्ञा	āgyā	ordre	n.f.
1	आठ	āṭh	huit	nombre 008
5	आठवाँ	08 āṭhvā̄	huitième	nombre ord.
12	आङ्	āṛū	pêche (fruit)	n.m.
14	आतंक	ātaṅka	terreur, panique	n.m.
14	आतंकवाद	ātaṅkavād	terrorisme	n.m.
14	आतंकवादी	ātaṅkavādī	terroriste	n.m.
16	आतिशबाज़ी	ātiśbāzī	feu d'artifice, pyrotechnie	n.f.
15	आत्महत्या	ātmahatyā	suicide	n.f.
23	आत्मा	ātmā	âme, esprit	n.f.
11	आदत	ādat	habitude	n.f.
3	आदमी	ādmī	homme	n.m.
14	आदर्श	ādarśa	idéal, modèle	adj.
14	आदर्श	ādarśa	idéal, modèle	n.m.
14	आदर्शवाद	ādarśavād	idéalisme	n.m.
6	आदि	ādi	et cetera	adv.

22	<b>आदेश</b>	ādeś	ordre	n.m.
21	<b>आधुनिक</b>	ādhunik	moderne, modernisé	adj.
22	<b>आधुनिकता</b>	ādhuniktā	modernité	n.f.
21	<b>आधुनिकीकरण</b>	ādhunikikarāṇ	modernisation	n.m.
13	<b>आनंद</b>	ānand	joie, bonheur	n.m.
13	<b>आनंदित</b>	ānandit	heureux, ravi	adj.
3	<b>आना</b>	ānā	venir, arriver	vb. int.
1	<b>आप</b>	āp	vous (respect. pluriel)	pron. pers.
1	<b>आपका</b>	āpkā	vos	adj. pos
1	<b>आपका</b>	āpkā	le vôtre	pron. pos
13	<b>आपस में</b>	āpas mē	mutuellement, réciprocement	adv.
12	<b>आम</b>	ām	mangue	n.m.
13	<b>आम</b>	ām	commun, général, public	adj.
13	<b>आम तौर पर</b>	ām taur par	ordinairement, en général	loc. adv.
13	<b>आम तौर से</b>	ām taur se	ordinairement, en général	loc. adv.
16	<b>आरंभ</b>	ārambha	début, commencement	n.m.
16	<b>आरंभ करना</b>	ārambha karnā	commencer, initier	vb. tr.
16	<b>आरंभ होना</b>	ārambha honā	être commencé, commencer	vb. int.
13	<b>आरती</b>	ārtī	geste rituel hindou	n.f.
16	<b>आरा</b>	ārā	grande scie, harpon	n.m.
16	<b>आराम</b>	ārām	repos, confort, soulagement	n.m.
16	<b>आरी</b>	ārī	petite scie	n.f.
22	<b>आरोप</b>	ārop	accusation	n.m.
22	<b>आरोपित</b>	āropit	accusé	adj.
20	<b>आर्थिक</b>	ārthik	économique	adj.
16	<b>आलपीन</b>	ālpīn	épinglé	n.f.
3	<b>आलमारी</b>	ālmārī	armoire	n.f.
8	<b>आलू</b>	ālū	pomme de terre	n.m.

12	<b>आलूचा</b>	ālūcā	prune	n.m.
10	<b>आलोचना</b>	ālocnā	critique, examen détaillé	n.f.
16	<b>आवश्यक</b>	āvaśyak	nécessaire	adj.
16	<b>आवश्यकता</b>	āvaśyaktā	nécessité, besoin, exigence	n.f.
15	<b>आवाज़</b>	āvāz	voix, bruit	n.f.
15	<b>आवाज़ उठाना</b>	āvāz uṭhānā	hausser la voix, le ton, protester	vb. tr.
15	<b>आवाज़ देना</b>	āvāz denā	crier, appeler	vb. tr.
15	<b>आवाज़ देना (किसी को)</b>	kisī ko āvāz denā	appeler quelqu'un	vb. tr.
19	<b>आवारा</b>	āvārā	vagabond, licencieux	adj.
19	<b>आवारा</b>	āvārā	vagabond	n.m.
11	<b>आशा</b>	āśā	espoir, espérance	n.f.
14	<b>आशावाद</b>	āśāvād	optimisme	n.m.
13	<b>आश्च होना (किसी को)</b>	(kisī ko) āścarya honā	être surpris, étonné	vb. int.
11	<b>आश्चर्य</b>	āścarya	étonnement, surprise	n.m.
19	<b>आश्वस्त</b>	āśvasta	rassuré, convaincu	adj.
19	<b>आश्वासक</b>	āśvāsak	rassurant, réconfortant	adj.
19	<b>आश्वासन</b>	āśvāsan	assurance, encouragement, consolation	n.m.
19	<b>आश्वासन दिलाना</b>	āśvāsan dilānā	assurer de, consoler	vb. tr.
19	<b>आश्वासन देना</b>	āśvāsan denā	assurer de, consoler	vb. tr.
4	<b>आसमान</b>	āsmān	ciel	n.m.
16	<b>आसानी</b>	āsānī	facilité	n.f.
7	<b>आसमानी</b>	āsmānī	azur, bleu ciel (couleur)	adj.
18	<b>इंजीनियर</b>	iñjīniyar	ingénieur	n.m.
1	<b>इंडिया</b>	iñdiyā	Inde (terme anglais)	n.
20	<b>इंतज़ाम</b>	intazām	arrangement, organisation, préparatifs	n.m.
20	<b>इंतज़ाम करना</b>	intazām karnā	arranger, organiser, prendre des dispositions	vb. tr.
20	<b>इंतज़ाम होना</b>	intazām honā	être prévu, arrangé, organisé	vb. int.
14	<b>इंतज़ार</b>	intazār	attente	n.m.

14	इंतजार करना (का)	intazār karnā (kā)	attendre	vb. tr.
6	इंद्रवधू	indravadhū	coccinelle	n.f.
22	इंसान	insān	être humain	n.m.
22	इंसानियत	insāniyat	humanité	n.f.
14	इकट्ठा करना	ikaṭṭhā karnā	réunir, rassembler	vb. tr.
22	इंसाफ़	insāf	justice	n.m.
5	इकतालीस	iktālis	quarante et un	nombre 041
4	इकतीस	ikttīs	trente et un	nombre 031
8	इक्सठ	iksath	soixante et un	nombre 061
9	इकहत्तर	ikahattar	soixante et onze	nombre 071
3	इक्कीस	ikkīs	vingt et un	nombre 021
10	इक्यानवे	ikyānave	quatre-vingt onze	nombre 091
7	इक्यावन	ikyāvan	cinquante et un	nombre 051
9	इक्यासी	ikyāsī	quatre-vingt un	nombre 081
11	इच्छा	icchā	désir, volonté, souhait	n.f.
23	इज़ज़त	izzat	honneur	n.f.
5	इत्वार	(7) itvār	dimanche	n.m.
11	इतिहास	itihās	histoire	n.m.
6	इत्यादि	ityādi	et cetera	adv.
2	इधर	idhar	par ici, de ce côté ci	loc. adv
14	इनक़लाब	inqalāb	révolution	n.m.
14	इनक़लाबी	inqalābī	révolutionnaire	adj.
14	इनक़लाबी	inqalābī	révolutionnaire	n.m.
19	इनकार	inkār	refus, négation	n.m.
19	इनकार करना	inkār karnā	refuser de , nier	vb. tr.
19	इनकार करना (V-ने से)	inkār karnā (V-ne se)	refuser de + verbe	vb. tr.
23	इनसान	inasān	homme, être humain	n.m.
23	इनसाफ़	inasāf	justice	n.m.

17	इनाम	inām	prix, récompense, pourboire	n.m.
3	इमारत	imārat	bâtiment, immeuble	n.f.
11	इरादा	irādā	intention	n.m.
22	इलज़ाम	ilazām	accusation	n.m.
7	इलायची	ilāyčī	cardamome	n.f.
6	इल्ली	illī	chenille	n.f.
19	इश्तहार	ištahār	annonce publicitaire, affiche	n.m.
2	इसका	iskā	son (de celui-ci)	adj. pos
2	इसका	iskā	le sien (de celui-ci)	pron. pos
20	इस्तेमाल	istemāl	usage, utilisation, emploi	n.m.
20	इस्तेमाल करना (का)	istemāl karnā (ka)	utiliser, faire usage	vb. tr.
4	ईमान	īmān	honnêteté, intégrité	n.m.
4	ईमानदार	īmāndār	honnête	adj.
23	ईश्वरीय	īśvarīya	divin	adj.
9	उँगली	ūglī	doigt	n.f.
22	उग्रवाद	ugravād	extrémisme	n.m.
12	उछलना	uchalnā	sauter, bondir, rebondir	vb. int.
12	उछालना	uchālnā	faire rebondir, jeter, lancer en l'air	vb. tr.
3	उठना	uṭhnā	se lever	vb. int.
17	उठवाना	uṭhvānā	faire lever (qqch.), faire réveiller	vb. tr.
8	उठाना	uṭhānā	lever, soulever	vb. tr.
9	उड़ना	uṛnā	voler, s'envoler, disparaître	vb. int.
9	उड़ान	uṛān	vol, envol	n.f.
9	उड़ाना	uṛānā	faire voler, faire s'envoler	vb. tr.
3	उतरना	utarnā	descendre	vb. int.
16	उत्तर	uttar	réponse, Nord	n.m.
22	उत्पाद	utpād	produit, récolte	n.m.
22	उत्पादक		producteur	n.m.

17	उत्पादन	utpādan	production, produit, reproduction	n.m.
22	उत्पादित	utpādit	produit	adj.
16	उत्सव	utsava	fête, festivité, célébration	n.m.
13	उदास	udās	malheureux, triste	adj.
13	उदासी	udāśī	tristesse, mélancolie	n.f.
20	उद्योग	udyog	travail, effort, industrie	n.f.
2	उधर	udhar	par là, de ce côté là	loc. adv
5	उनचास	uncās	quarante neuf	nombre 049
4	उनतालीस	untālīs	trente neuf	nombre 039
3	उनतीस	untīs	vingt neuf	nombre 029
7	उनसाठ	unsāṭh	cinquante neuf	nombre 059
8	उनहत्तर	unhattar	soixante neuf	nombre 069
9	उनासी	unāśī	soixante dix-neuf	nombre 079
2	उन्नीस	unnīs	dix-neuf	nombre 019
21	उपकार	upkār	bienfait	n.m.
21	उपकारक	upkārak	bienfaiteur	n.m.
21	उपकारक	upkārak	bienfaiteur, bienfaisant, favorable	adj.
21	उपकारी	upkārī	bienfaiteur	n.m.
21	उपकारी	upkārī	bienfaiteur, bienfaisant, favorable	adj.
10	उपन्यास	upanyās	roman	n.m.
22	उपस्थित	upasthit	présent	adj.
15	उम्र	umra	âge, durée de vie	n.f.
8	उलटा	ultā	renversé, retourné, opposé	adj.
6	उलू	ullū	hibou	n.m.
15	उलू बनाना	ullū banānā	se moquer de, ridiculiser	vb. tr.
2	उसका	uskā	son	adj. pos
2	उसका	uskā	le sien	pron. pos
16	उस्तरा	ustarā	rasoir (à lame)	n.m.

6	<b>ऊँघना</b>	ūghnā	somnoler, s'assoupir	vb. int.
2	<b>ऊँचा</b>	ūcā	haut	adj.
2	<b>ऊँचाई</b>	ūcāt	hauteur	n.f.
6	<b>ऊँट</b>	ūṭ	chameau, dromadaire	n.m.
2	<b>ऊपर</b>	ūpar	en haut	adv.
20	<b>ऊबना</b>	ūbnā	s'ennuyer, en avoir assez	vb. int.
13	<b>ऋतु</b>	ritu	saison	n.f.
13	<b>ऋतु विज्ञान</b>	ritu-vijñān	météorologie	n.m.
1	<b>एक</b>	ek	un	nombre 001
13	<b>एक दूसरे</b>	ek dūsre	l'un l'autre, l'une l'autre, les uns les autres	adv.
15	<b>एक दूसरे से (को)</b>	ek dūsre se (ko)	mutuellement, réciprocement	adv.
18	<b>एक-सा</b>	ek-sā	similaire, semblable	adj.
17	<b>एकाएक</b>	ekāek	soudain, tout à coup	adv. tps
21	<b>एकीकरण</b>	ekīkaraṇ	unification, assimilation, intégration	n.m.
9	<b>एडी</b>	erī	talon (du pied)	n.m.
19	<b>एतबार</b>	etbār	confiance, foi, croyance	n.m.
12	<b>एवं</b>	ev	et	conj. coord.
11	<b>ऐतिहासिक</b>	aitihāsik	historique	adj.
17	<b>ऐलान</b>	ailān (= elān)	déclaration, annonce	n.m.
23	<b>ऐश्वर्य</b>	aiśvarya	nature divine	n.m.
9	<b>ऐसा</b>	aisā	tel, pareil	adj.
9	<b>ऐसा</b>	aisā	ainsi	adv.
2	<b>ओर</b>	or	direction, côté	n.f.
16	<b>औजार</b>	auzār	outil, instrument	n.m.
20	<b>औद्योगिक</b>	audyogik	industriel	adj.
21	<b>औद्योगीकरण</b>	audyogikaraṇ	industrialisation	n.m.
1	<b>और</b>	aur	et	conj. coord.
3	<b>औरत</b>	aurat	femme, épouse	n.f.

16	<b>कंधा</b>	kañgha	peigne	n.m.
15	<b>कंजूस</b>	kañjūs	avare, parcimonieux	adj.
15	<b>कंजूसी</b>	kañjūsī	avarice, parcimonie	n.f.
9	<b>कंधा</b>	kandhā	épaule	n.m.
16	<b>कंबल</b>	kambal	couverture	n.m.
10	<b>कई</b>	kaī	plusieurs	adj.
8	<b>ककड़ी</b>	kakṛī	variété de concombre	n.f.
12	<b>कचरा</b>	kacrā	ordure, déchet	n.m.
3	<b>कच्चा</b>	kaccā	cru, vert (pas mûr), imparfait	adj.
6	<b>कछुआ</b>	kachuā	tortue	n.m.
16	<b>कटन</b>	kaṭan	incision, coupure	n.f.
6	<b>कटना</b>	kaṭnā	être coupé, se couper	vb. int.
17	<b>कटवाना</b>	katvānā	faire couper, faire moissonner	vb. tr.
16	<b>कटोरा</b>	kaṭorā	grand bol	n.m.
18	<b>कट्टर</b>	kaṭṭar	strict, dur, dogmatique, fanatique	adj.
18	<b>कट्टरता</b>	kaṭṭartā	dureté, dogmatisme, fanatisme	n.f.
6	<b>कठपुतली</b>	kaṭhpūtlī	marionnette, homme de paille	n.f.
18	<b>कठिन</b>	kaṭhin	dur, difficile, ardu, sévère	adj.
18	<b>कठिनाई</b>	kaṭhināī	difficulté	n.f.
18	<b>कठोर</b>	kaṭhor	dur, sévère, cruel, rigide	adj.
18	<b>कठोरता</b>	kaṭhortā	dureté, rigueur, rigidité, austérité	n.f.
2	<b>कडवा</b>	karvā	amer	adj.
16	<b>कड़ाही</b>	kaṛāhī	poêle à frire	n.f.
19	<b>कथा</b>	kathā	histoire, conte, discours religieux	n.f.
22	<b>कदम</b>	qadam	pas, étape	n.m.
18	<b>कदाचित</b>	kadācit	peut-être	adv.
9	<b>कन्या</b>	kanyā	fille, vierge	n.f.
5	<b>कपड़ा</b>	kapṛā	vêtement	n.m.

5	<b>कब</b>	kab	quand ?	adv. tps.
6	<b>कब तक</b>	kab tak ?	jusqu'à quand ?	loc. adv
6	<b>कब से</b>	kab se ?	depuis quand ?	loc. adv
6	<b>कबूतर</b>	kabūtar	pigeon	n.m.
19	<b>कबूतरखाना</b>	kabūtar-khānā	pigeonnier	n.m.
14	<b>कब्रा</b>	qabra	tombe	n.f.
4	<b>कभी</b>	kabhī	une fois	adv. tps.
5	<b>कभी कभी</b>	kabhī kabhī	parfois, de temps en temps	adv. tps
5	<b>कभी नहीं</b>	kabhī nahī̄	jamais	adv.tps
1	<b>कम</b>	kam	peu, moins	adj.
1	<b>कम</b>	kam	rarement	adv. tps.
12	<b>कमज़ोर</b>	kamzor	faible, sans force	adj.
12	<b>कमज़ोरी</b>	kamzorī	faiblesse, déficience	n.f.
9	<b>कमर</b>	kamar	taille, reins, bas du dos	n.f.
3	<b>कमरा</b>	kamrā	chambre, pièce	n.m.
19	<b>कमाई</b>	kamāī	revenu, gain	n.f.
19	<b>कमाई करना</b>	kamāī karnā	gagner (un salaire, une rétribution)	vb. tr.
19	<b>कमाना</b>	kamānā	gagner, travailler le cuir, nettoyer	vb. tr.
11	<b>कमी</b>	kamī	manque, rareté	n.f.
11	<b>कमी होना (किसी को...की)</b>	kamī honā (kisī ko...kī)	manquer de ...	vb. tr.
13	<b>कमीज़</b>	kamīz	chemise, tunique	n.f.
8	<b>करके</b>	karke	"en faisant" (forme irr. de karnā)	vb. tr.
16	<b>करछी</b>	karchī	louche, grande cuillère	n.f.
2	<b>करना</b>	karnā (irrégulier)	faire	vb. tr.
17	<b>करवाना</b>	karvānā	faire faire	vb. tr.
6	<b>कराना</b>	karānā	faire faire (à quelqu'un)	vb. tr.
10	<b>करोड़</b>	kroṛ	dix millions	nombre 10000000
3	<b>कर्मचारी</b>	karmacārī	employé, fonctionnaire	n.m.

5	<b>कल</b>	kal	demain, hier	adv.tps
4	<b>कला</b>	kalā	art, jeu, sport	n.f.
4	<b>कलाकार</b>	kalākār	artiste	n.m.
4	<b>कलाबाज़</b>	kalābāz	acrobate	n.m.
4	<b>कलाबाज़ी</b>	kalābāzī	acrobatie	n.f.
9	<b>कलेजा</b>	kalejā	foie	n.m.
18	<b>कल्पना</b>	kalpanā	imagination, supposition, fiction	n.f.
18	<b>कल्पनीय</b>	kalpanīya	imaginable	adj.
14	<b>कवि</b>	kavi	poète	n.m.
14	<b>कविता</b>	kavītā	poésie, composition poétique	n.f.
17	<b>कष्ट</b>	kaṣṭa	souffrance, peine, malheur	n.m.
19	<b>कसना</b>	kasnā	réduire en petits morceaux, râper, essayer	vb. tr.
17	<b>कसरत</b>	kasrat	exercice physique, abondance	n.f.
10	<b>कसाई</b>	kasāī	boucher	n.m.
17	<b>क़सूर</b>	qasūr	faute, erreur, culpabilité	n.m.
23	<b>कसौटी</b>	kasauṭī	critère	n.f.
5	<b>कहना</b>	kahanā	dire, déclarer	vb. tr.
18	<b>कहर</b>	kahar	calamité	n.m.
2	<b>कहाँ</b>	kahā̃	où ?	adv. Interro
6	<b>कहाँ तक</b>	kahā̃ tak ?	jusqu'où ?	loc. adv
6	<b>कहाँ से</b>	kahā̃ se ?	d'où ?	loc. adv
22	<b>कहानी</b>	kahānī	conte, histoire, nouvelle	n.f.
18	<b>काँपना</b>	kāmpnā	trembler, frissonner	vb. int.
19	<b>कागज</b>	kāgaz	papier	n.m.
19	<b>कागजात</b>	kāgzaṭ	papiers, documents	n.m.
6	<b>काट</b>	kaṭ	coupure	n.m.
6	<b>काटना</b>	kāṭnā	couper, mordre, moissonner	vb. tr.
9	<b>कान</b>	kān	oreille	n.m.

16	<b>कानून</b>	qānūn	loi, statut, règlement	n.m.
22	<b>कानूनी</b>	qānūnī	légal	adj.
9	<b>काफ़ी</b>	kāfi	suffisant, adéquat, assez	adj.
18	<b>काबिल</b>	qābil	capable, compétent, digne	adj.
18	<b>काबिलियत</b>	qābiliyat	compétence, aptitude, capacité	n.f.
3	<b>काम</b>	kām	travail, emploi, tâche	n.m.
3	<b>काम करना</b>	kām karnā	travailler	vb. int.
16	<b>कायदा</b>	kāydā	règle, pratique, méthode	n.m.
8	<b>कारखाना</b>	kārkhanā	usine, atelier	n.m.
10	<b>कारीगर</b>	kārīgar	artisan	n.m.
19	<b>कार्य</b>	kārya	travail, tâche, fonction, action	n.m.
20	<b>कार्यक्रम</b>	kāryakram	programme, emploi du temps	n.m.
19	<b>कार्यालय</b>	kāryālaya	bureau, département (administration)	n.m.
18	<b>काल</b>	kāl	temps, ère, période, saison	n.m.
7	<b>काला</b>	kālā	noir, sombre	adj.
7	<b>काली मिर्च</b>	kālī mirc	poivre	n.f.
3	<b>कालीन</b>	qālin	tapis	n.m.
6	<b>किड़ा</b>	kirā	ver	n.m.
4	<b>कितना</b>	kitnā	combien	adj. Interro
4	<b>कितना</b>	kitnā	comme	adv.
8	<b>किताब</b>	kitāb	livre	n.f.
8	<b>किताबखाना</b>	kitābkhanā	bibliothèque	n.m.
2	<b>किधर</b>	kidhar	par où ? de quel côté ?	loc. adv
19	<b>किराया</b>	kirāyā	loyer, tarif	n.m.
19	<b>किराये का</b>	kirāye kā	à louer, en location	adj.
19	<b>किराये पर देना</b>	kirāye par denā	louer (donner en location)	vb. tr.
19	<b>किराये पर लेना</b>	kirāye par lenā	louer (prendre en location)	vb. tr.
19	<b>किरायेदार</b>	kirāyedār	locataire	n.m.

6	<b>किला</b>	qilā	forteresse, fort, château	n.m.
10	<b>किसान</b>	kisān	paysan	n.m.
5	<b>किस्म</b>	kism	sorte, espèce, genre	n.f.
4	<b>किस्मत</b>	qismat	destin, sort, chance	n.f.
22	<b>किस्सा</b>	qissā	conte, histoire, nouvelle	n.m.
2	<b>की ओर</b>	kī or	en direction de, vers	post pos.
23	<b>कीमत</b>	qīmat	prix, coût, valeur	n.f.
23	<b>कीमती</b>	qīmatī	coûteux, précieux, de valeur	adj.
10	<b>की वजह से</b>	kī vajah se	à cause de	post pos.
3	<b>कुआँ</b>	kuā̄	puits	n.m.
8	<b>कुकुर मुत्ता</b>	kukur-muttā	champignon	n.m.
3	<b>कुछ</b>	kuch	un peu, quelques-uns	adj.
3	<b>कुछ</b>	kuch	un peu, quelques-uns	pron.
6	<b>कुत्ता</b>	kuttā	chien	n.m.
22	<b>कुदरत</b>	qudarat	nature	n.f.
22	<b>कुदरती</b>	qudaratī	naturel	adj.
16	<b>कुदाल</b>	kudāl	pioche	n.m.
17	<b>कुपोषण</b>	kupoṣaṇ	malnutrition	n.m.
3	<b>कुमारी</b>	kumārī	vierge (jeune fille)	adj.
3	<b>कुमारी</b>	kumārī	mademoiselle, jeune fille	n.f.
10	<b>कुम्हार</b>	kumhār	potier	n.m.
20	<b>कुरता</b>	kurtā	tunique ample	n.m.
1	<b>कुरसी</b>	kursī	chaise	n.f.
2	<b>कुरुप</b>	kurūp	laid	adj.
2	<b>कुरुपता</b>	kurūptā	laideur	n.f.
18	<b>कुशल</b>	kuśal	doué, adroit, habile	adj.
9	<b>कुहनी</b>	kuhanī	coude	n.f.
13	<b>कुहरा</b>	kuharā	brouillard	n.m.

8	<b>कूटना</b>	kūdnā	sauter, bondir	vb. int.
8	<b>कृपया</b>	kripayā	s'il vous plaît	adv.
2	<b>के अंदर</b>	ke andar	dans, à l'intérieur de	post pos.
18	<b>के अनुकूल</b>	ke anukūl	selon, en accord avec	post pos.
18	<b>के अनुसार</b>	ke anusār	conformément à, suivant, d'après	post pos.
2	<b>के ऊपर</b>	ke ūpar	au-dessus de	post pos.
2	<b>के क़रीब</b>	ke qarīb	près de	post pos.
10	<b>के कारण</b>	ke kāraṇ	à cause de	post pos.
2	<b>के किनारे</b>	ke kināre	au bord de	post pos.
20	<b>के खिलाफ</b>	ke khilāf	au contraire, contrairement à	adv.
2	<b>के चारों ओर</b>	ke cārō or	tout autour de	post pos.
15	<b>के दौरान</b>	ke daurān	pendant	adv. tps
18	<b>के द्वारा</b>	ke dvārā	par, au moyen de	post pos.
2	<b>के नज़दीक</b>	ke nazdīk	près de	post pos.
2	<b>के नीचे</b>	ke nīce	sous, en-dessous de	post pos.
2	<b>के पास</b>	ke pās	près de	post pos.
2	<b>के पीछे</b>	ke pīche	à l'arrière de	post pos.
14	<b>के प्रति</b>	ke prati	envers	post pos.
4	<b>के बगैर</b>	ke bagair	sans	post pos.
18	<b>के बजाय</b>	ke bajāy	au lieu de, à la place de	post pos.
5	<b>के बाद</b>	ke bād	après	post pos.
11	<b>के बारे में</b>	ke bāre mē	à propos de	post pos.
18	<b>के बावजूद</b>	ke bāvajūd	en dépit de, malgré, bien que	post pos.
2	<b>के बाहर</b>	ke bāhar	à l'extérieur de	post pos.
4	<b>के बिना</b>	ke binā	sans	post pos.
14	<b>के बीच</b>	ke bīc	au milieu de, parmi	post pos.
2	<b>के बीच में</b>	ke bīc mē	au milieu de	post pos.
19	<b>के मारे</b>	ke māre	à cause de	post pos.

14	के यहाँ	ke yahā	chez	post pos.
18	के लायक	ke lāyaq	convenable à, convenable pour	post pos.
5	के लिए	ke lie	pour	post pos.
20	के विरुद्ध	ke viruddha	contre	adv.
2	के सामने	ke sāmne	en face de	post pos.
17	के सिवा	ke sivā	excepté, à part	post pos.
21	केंद्र	kendra	centre	n.m.
21	केंद्रीकरण	kendrikaraṇ	centralisation, concentration	n.m.
12	केला	kelā	banane	n.m.
5	केवल	keval	seulement, uniquement	adv.
7	केसर	kesar	safran	n.f.
7	केसरिया	kesariyā	safran (couleur)	adj.
16	कैंची	kaiñcī	ciseaux	n.f.
8	कैद	qaïd	emprisonnement, incarcération	n.f.
8	कैदखाना	qaïdkhānā	prison	n.m.
9	को मज़ाक समझना	ko mazāq samajhnā	prendre à la légère	vb. tr.
6	कोयल	koyal	coucou (oiseau)	n.f.
12	कोशिश	kośis	effort, essai	n.f.
12	कोशिश करना	kośis karnā	s'efforcer de, essayer de	vb. tr.
6	कौआ	kauā	corbeau	n.m.
1	कौन	kaun	qui ?	pron. interro
9	कौनसा	kaunsā	lequel	adj. Interro
9	कौनसा	kaunsā	lequel	pron.
18	कौशल	kauśal	dextérité, habileté	n.m.
1	क्या	kyā	quoi, quel, est ce que ?	pron. interro
6	क्योंकि	kyōki	parce que	adv.
18	क्रम	kram	ordre, système, série, rang	n.m.
14	क्रांति	krānti	révolution	n.f.

14	<b>क्रांतिकारी</b>	krāntikārī	révolutionnaire	adj.
14	<b>क्रांतिकारी</b>	krāntikārī	révolutionnaire	n.m.
14	<b>क्रिया</b>	kriyā	action, acte, verbe	n.f.
15	<b>क्रोध</b>	krodh	colère, rage, furie	n.m.
19	<b>क्षत्रिय</b>	ksatriya	caste des guerriers	n.m.
14	<b>क्षेत्र</b>	kṣetra	champ, région, étendue	n.m.
14	<b>क्षेत्रवाद</b>	kṣetravād	régionalisme	n.m.
10	<b>खंडहर</b>	khanḍahar	ruine	n.m.
22	<b>खज़ाना</b>	qhazānā	trésor	n.m.
17	<b>खंभ</b>	khābhā	poteau	n.m.
12	<b>खजूर</b>	khajūr	datte	n.f.
2	<b>खट्टा</b>	khattā	acide	adj.
12	<b>खड़ा</b>	kharā	debout, vertical, prêt, entier	adj.
12	<b>खड़ा करना</b>	kharā karnā	mettre debout, ériger, initier	vb. tr.
12	<b>खड़ा रखना</b>	kharā rakhnā	maintenir, supporter	vb. tr.
12	<b>खड़ा रहना</b>	kharā rahanā	rester debout, attendre	vb. int.
12	<b>खड़ा होना</b>	kharā honā	être debout, se lever, surgir	vb. int.
12	<b>खडे-खडे</b>	khare-khare	debout, immédiatement	adv.
17	<b>खत</b>	khat	lettre, missive, écriture, ligne	n.m.
6	<b>खतरनाक</b>	khatarnāk	dangereux, périlleux	adj.
6	<b>खतरा</b>	khatarā	danger, risque	n.m.
6	<b>खतरा होने पर</b>	khatarā hone par	en cas de danger	expr.
6	<b>खतरे की घंटी</b>	khatre kī ghanṭī	signal d'alarme	locut.
6	<b>खतरे में डालना</b>	khatare mē dālnā	mettre en danger	vb. tr.
6	<b>खतरे से खेलना</b>	khatare se khelnā	jouer avec le feu	vb. tr.
6	<b>खतरे से बाहर होना</b>	khatare se bāhar honā	être hors de danger	expr.
17	<b>खत्म (खतम)</b>	khatma (khatam)	fini, terminé, achevé, conclu	adj.
17	<b>खत्म करना</b>	khatma karnā	achever, terminer	vb. tr.

17	<b>ਖਤਮ ਹੋਨਾ</b>	khatma honā	être terminé	vb. int.
10	<b>ਖਬਰ</b>	khabar	nouvelles, information	n.f.
13	<b>ਖਯਾਲ</b>	khayāl	pensée, idée, (+ style musical)	n.m.
13	<b>ਖਯਾਲ ਆਨਾ (ਕਿਸੀ ਕੋ)</b>	khayāl ānā (kisī ko)	penser à, se souvenir de	vb. int.
13	<b>ਖਯਾਲ ਕਰਨਾ</b>	khayāl karnā	penser à, faire attention à	vb. tr.
13	<b>ਖਯਾਲੀ</b>	khayālī	imaginaire, fantaisiste, illusoire	adj.
13	<b>ਖਯਾਲੀ ਪੁਲਾਵ ਪਕਾਨਾ</b>	khayālī pulāv pakānā	faire des châteaux en Espagne	expres.
12	<b>ਖਰਬੂਜਾ</b>	kharabūzā	melon	n.m.
5	<b>ਖਰਾਬ</b>	kharāb	mauvais, méchant, abîmé	adj.
4	<b>ਖਰੀਦ</b>	kharīd	achat	n.f.
4	<b>ਖਰੀਦਨਾ</b>	kharīdnā	acheter	vb. tr.
4	<b>ਖਰੀਦਾਰ</b>	kharīdār	acheteur, client	n.m.
9	<b>ਖਲਨਾਯਕ</b>	khalnāyak	vilain, anti-héros	n.m.
19	<b>ਖਲਬਲੀ</b>	khalbalī	désordre, agitation, commotion	n.f.
7	<b>ਖ਼ਸ਼ਮਿਜ਼ਾਜ</b>	khuśmizāj	qui a bon caractère, enjoué,gai	adj.
17	<b>ਖਾਕ</b>	khāk	poussière, cendre, chose insignifiante	n.f.
8	<b>ਖਾਟ</b>	khāṭ	lit (de planches)	n.f.
17	<b>ਖਾਤਾ</b>	khātā	compte en banque	n.m.
6	<b>ਖਾਤਿਰ</b>	khātir	accueil, respect, estime	n.f.
6	<b>ਖਾਤਿਰ ਕਰਨਾ (ਕਿਸੀ ਕੀ)</b>	khātir karnā (kisī kī)	accueillir quelqu'un	vb. tr.
20	<b>ਖਾਦੀ</b>	khādī	tissu de coton filé et tissé à la main	n.f.
3	<b>ਖਾਨਾ</b>	khānā	manger	vb. tr.
15	<b>ਖਾਲੀ</b>	khālī	vide, libre, disponible, sans travail	adj.
11	<b>ਖਾਸ</b>	khās	particulier, spécifique, caractéristique	adj.
11	<b>ਖਾਸ ਤੌਰ ਸੇ</b>	khās taur se	en particulier, de façon particulière	loc. adv
14	<b>ਖਾਸਕਰ</b>	khāskar	particulièrement	adv.
11	<b>ਖਾਸਿਧਤ</b>	khāsiyat	particularité, spécificité, caractéristique	n.f.
21	<b>ਖਾਸੀ</b>	khāsī	particulièrement	adv.

17	<b>ਖਿਚੜੀ</b>	khicṛī	plat à base de riz et de lentilles	n.f.
3	<b>ਖਿੱਡਕੀ</b>	khirķī	fenêtre	n.f.
19	<b>ਖਿਲਨਾ</b>	khilnā	fleurir, s'épanouir, éclore, se réjouir	vb. int.
17	<b>ਖਿਲਵਾਨਾ</b>	khilvānā	faire faire manger, faire nourrir	vb. tr.
15	<b>ਖਿਲਾੜੀ</b>	khilāṛī	joueur	n.m.
17	<b>ਖਿਲਾਨਾ</b>	khilānā	faire manger, nourrir	vb. tr.
17	<b>ਖਿਲਾਨਾ</b>	khilānā	faire fleurir, faire s'ouvrir	vb. tr.
17	<b>ਖਿਲਾਨਾ</b>	khilānā	faire jouer	vb. tr.
20	<b>ਖਿਲਾਫ</b>	khilāf	opposé à	adj.
20	<b>ਖਿਲਾਫਤ</b>	khilāfat	opposition, antagonisme	n.f.
8	<b>ਖੀਰ</b>	khīr	riz au lait	n.f.
8	<b>ਖੀਰਾ</b>	khīrā	concombre	n.m.
15	<b>ਖੁਦ</b>	khud	de soi-même, tout seul	adv.
15	<b>ਖੁਦ</b>	khud	soi-même	pron. refl.
15	<b>ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ</b>	khudkuśī	suicide	n.f.
12	<b>ਖੁਮਾਨੀ</b>	khumānī	abricot	n.f.
8	<b>ਖੁਲਨਾ</b>	khulnā	être ouvert, s'ouvrir, être détaché	vb. int.
13	<b>ਖੁਲਾ</b>	khulā	ouvert, découvert, chaleureux	adj.
13	<b>ਖੁਲੇ ਆਮ</b>	khule ām	ouvertement, publiquement	adv.
13	<b>ਖੁਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ</b>	khule bāzār	ouvertement, publiquement	adv.
13	<b>ਖੁਲੇ ਮੈਦਾਨ</b>	khule maidān	ouvertement, publiquement	adv.
13	<b>ਖੁਸ਼</b>	khuś	heureux	adj.
7	<b>ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ</b>	khuśqismat	fortuné, chanceux	adj.
7	<b>ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ</b>	khuśqismatī	fortune, chance	n.f.
7	<b>ਖੁਸ਼ਬੂ</b>	khuśbū	parfum, arôme, bonne odeur	n.f.
7	<b>ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ</b>	khuśbūdār	parfumé	adj.
7	<b>ਖੁਸ਼ਮਿੜਾਜੀ</b>	khuśmizājī	bon caractère, gaité	n.f.
7	<b>ਖੁਸ਼ਹਾਲ</b>	khuśhāl	heureux, prospère, florissant	adj.

13	खुशी	khuśī	joie, bonheur	n.f.
9	खून	khūn	sang	n.m.
15	खून करना (किसी को)	khūn karnā (kisī ko)	tuer, assassiner quelqu'un	vb. tr.
4	खूब	khūb	bien, parfait, excellent	adj.
4	खूब	khūb	très, beaucoup, complètement	adv.
2	खूबसूरत	khūbsūrat	beau, joli	adj.
2	खूबसूरती	khūbsūratī	beauté	n.f.
6	खेल	khel	jeu, sport, rôle (théâtre)	n.m.
3	खेलना	khelnā	jouer	vb. int.
8	खैर	khair	enfin, tant pis	adv.
13	खैर	khair	bien-être	n.f.
13	खैर से	khair se	sain et sauf, en bon état	adv.
13	खैरियत	khairiyat	bien-être	n.f.
13	खैरियत से	khairiyat se	sain et sauf, en bon état	adv.
23	खोजना	khojanā	chercher	vb. tr.
23	खोदना	khodanā	creuser	vb. tr.
23	खोना	khonā	perdre	vb. tr.
9	खोपड़ी	khoparī	crâne	n.f.
8	खोलना	kholnā	ouvrir	vb. tr.
14	ख्वाब	khvāb	rêve	n.m.
14	ख्वाब देखना	khvāb dekhnā	rêver	vb. tr.
13	गङ्गड़ाहट	gargarāhat	gargouillement, grondement (= tonnerre)	n.f.
2	गता	gattā	carton	n.m.
6	गधा	gadhā	âne, personne stupide	n.m.
13	गरज	garaj	tonnerre, grondement	n.f.
13	गरजना	garajnā	gronder, rugir, tonner	vb. int.
1	गरम	garam	chaud	adj.
13	गरमियों का मौसम	garmiyō kā mausam	saison chaude (été)	n.m.

4	<b>गरमी</b>	garmī	chaleur, été, passion, colère	n.f.
13	<b>गरीब</b>	garīb	pauvre, humble	adj.
13	<b>गरीब</b>	garīb	homme pauvre	n.m.
13	<b>गरीबी</b>	garībī	pauvreté, pénurie	n.f.
11	<b>गर्मी पड़ना</b>	garmī parnā	faire chaud	vb. int.
11	<b>गर्मी लगना (किसी को)</b>	garmī lagnā (kisī ko)	avoir chaud	vb. int.
23	<b>गर्व</b>	garva	orgueil, fierté	n.m.
10	<b>ग़लत</b>	galat	erroné, faux, incorrect	adj.
10	<b>ग़लती</b>	galtī	erreur, faute	n.f.
9	<b>गला</b>	galā	gorge, cou	n.m.
5	<b>गली</b>	galī	ruelle	n.f.
14	<b>गवाह</b>	gavāha	témoin	n.m.
14	<b>गवाही</b>	gavāhī	témoignage	n.f.
7	<b>गहरा</b>	gaharā	foncé, sombre, intime, grave	adj.
23	<b>गहरा</b>	gaharā	profond	adj.
23	<b>गहराई</b>	gaharāī	profondeur	n.f.
15	<b>गाँव</b>	gāv	village	n.m.
15	<b>गाँववाला</b>	gāvvavālā	villageois	adj.
15	<b>गाँववाला</b>	gāvvavālā	villageois	n.m.
15	<b>गाँवार</b>	gāvār	villageois, rustre, cul terreux, inculte	adj.
15	<b>गाँवार</b>	gāvār	villageois, rustre, cul terreux, inculte	n.m.
8	<b>गाजर</b>	gājar	carotte	n.f.
23	<b>गाइना</b>	gāranā	enterrer	vb. tr.
9	<b>गाड़ी</b>	gāṛī	véhicule, voiture, train	n.f.
3	<b>गाना</b>	gānā	un chant, une chanson	n.m.
3	<b>गाना</b>	gānā	chanter	vb. tr.
6	<b>गाय</b>	gāya	vache	n.f.
20	<b>गायक</b>	gāyak	chanteur, musicien	n.m.

9	ગાલ	gāl	joue	n.m.
6	ગિદ્ધ	giddha	vautour	n.m.
12	ગિનના	ginnā	compter	vb. tr.
6	ગિરના	girnā	tomber, trébucher	vb. int.
20	ગિરવી	girvī	gage, hypothèque	n.f.
6	ગિરાના	girānā	faire tomber	vb. tr.
14	ગિરફ્તાર	giraftār	arrestation	n.m.
23	ગિરોહ	giroha	bande, groupe	n.m.
6	ગિલહરી	gilharī	écureuil	n.f.
11	ગીત	gīt	chanson	n.m.
6	ગીદડ	gīdar	chacal, personne timide	n.m.
15	ગીલા	gīlā	humide, mouillé	adj.
15	ગીલાપન	gīlāpan	humidité	n.m.
9	ગુંડા	gundā	vandale, voyou, hooligan	n.m.
12	ગુજર	guzar	subsistance, vie, temps	n.f.
12	ગુજર જાના	guzar jānā	mourir	vb. int.
12	ગુજરના	guzarnā	passer	vb. int.
12	ગુજારના	guzārnā	passer (le temps, la vie)	vb. tr.
12	ગુજારા	guzārā	subsistance, vie, temps	n.m.
15	ગુટ	guṭ	bloc, faction, clique, groupe	n.m.
15	ગુણ	guṇ	qualité, attribut, vertu	n.m.
1	ગુરુ	guru	long (syllabe), dur, difficile	adj.
1	ગુરુ	guru	maître	n.m.
5	ગુરુવાર	(4) guruvār	jeudi (jour du guru)	n.m.
7	ગુલાબ	gulāb	rose	n.m.
7	ગુલાબી	gulābī	rose (couleur)	adj.
8	ગુસલ	gusal	bain	n.m.
3	ગુસલખાના	gusalkhānā	salle de bain	n.m.

4	<b>गुस्सा</b>	gussā	colère, rage, furie	n.m.
15	<b>गुस्सा अतारना (किसी पर)</b>	gussā atārnā (kisī par)	passer sa colère sur quelqu'un	vb. tr.
15	<b>गुस्सा आना (किसी को)</b>	gussā ānā (kisī ko)	éprouver de la colère, se mettre en colère	vb. int.
4	<b>गुस्सेबाज़</b>	gussebāz	coléreux, irascible	adj.
15	<b>गूँगा</b>	gū̄gā	muet	adj.
15	<b>गूँगा</b>	gū̄gā	muet	n.m.
18	<b>गूँज</b>	gūñj	bourdonnement d'abeille, résonance	n.f.
17	<b>गेंद</b>	gend	balle	n.f.
8	<b>गेहूँ</b>	gehū̄	blé	n.m.
22	<b>गैरहाजिर</b>	gairahāzir	absent	adj.
22	<b>गैरहाजिरी</b>	gairahāzirī	absence	n.f.
22	<b>गैरइंसाफ़</b>	gair-insāf	injustice	n.f.
22	<b>गैरकानूनी</b>	gair-qānūnī	illégal	adj.
22	<b>गैरज़रूरी</b>	gair-zarūrī	superflu	adj.
22	<b>गैरज़िम्मेदार</b>	gair-zimmedar	irresponsable	adj.
22	<b>गैरमुनासीब</b>	gair-munāsib	inapproprié, incorrect	adj.
23	<b>गोता</b>	gotā	plongeon	n.m.
8	<b>गोभी</b>	gobhī	chou, chou-fleur	n.f.
11	<b>गोशत</b>	gośta	viande, chair	n.m.
18	<b>गौर</b>	gaur	attention, réflexion, délibération	n.m.
12	<b>गौरव</b>	gaurav	fierté	n.m.
2	<b>ज्यारह</b>	gyārah	onze	nombre 011
19	<b>ग्रंथ</b>	grantha	livre, volume	n.m.
19	<b>ग्रंथालय</b>	granthālaya	bibliothèque, salle de lecture	n.m.
15	<b>ग्राम</b>	grām	village	n.m.
15	<b>ग्रामीण</b>	grāmīṇ	villageois, rural	adj.
15	<b>ग्रामीण</b>	grāmīṇ	villageois, rural	n.m.
4	<b>घंटा</b>	ghaṇṭā	heure (une), cloche	n.m.

15	घटना	ghaṭnā	diminuer	vb. int.
15	घटाना	ghaṭānā	réduire	vb. tr.
2	घड़ी	ghaṛī	montre	n.f.
12	घबड़ाना	ghabṛānā	s'agiter, s'énerver, paniquer	vb. int.
5	घबराना	ghabṛānā	s'énerver, s'inquiéter	vb. int.
7	घबराहट	ghabṛāhaṭ	nervosité, inquiétude, panique	n.f.
3	घर	ghar	maison	n.m.
17	घास	ghās	herbe	n.f.
11	घी	ghī	ghi, beurre clarifié	n.m.
9	घुटना	ghuṭnā	genou	n.m.
5	घुमाना	ghumānā	promener	vb. tr.
4	घुलना	ghulnā	être dissous, être mélangé	vb. int.
19	घुसना (घुसड़ना)	ghusnā (= ghusarnā)	pénétrer dans, entrer par force	vb. int.
13	घूँघट	ghūṅghat	voile de femme	n.m.
5	घूमना	ghūmnā	se promener, flâner	vb. int.
6	घूमाना	ghūmānā	faire promener	vb. tr.
3	घोड़ा	ghorā	cheval	n.m.
3	घोड़ी	ghorī	jument	n.f.
4	घोलना	gholnā	dissoudre, mélanger	vb. tr.
17	घोषणा	ghoṣṇā	déclaration, proclamation	n.f.
17	घोषणा-पत्र	ghoṣṇā-patra	déclaration, proclamation écrite	n.m.
17	घोषित	ghoṣit	déclaré, proclamé	adj.
6	चक्रराना	cakrānā	tourner	vb. tr.
13	चकित	cakit	surpris, étonné, stupéfait	adj.
12	चकोतरा	cakotrā	pamplemousse	n.m.
19	चखना	cakhanā	goûter, apprécier	vb. int.
Fam.	चचेरा भाई	cacerā bhāī	cousin (fils du frère cadet du père)	n.m.
3	चढ़ना	caṛhanā	monter, grimper	vb. int.

3	<b>चढ़ाना</b>	carhānā	faire monter	vb. tr.
4	<b>चढ़ाव</b>	carhāv	montée	n.m.
19	<b>चतुर</b>	catur	doué, habile, sage, rusé	adj.
8	<b>चना</b>	canā	pois chiche	n.m.
17	<b>चपरासी</b>	caparāsī	ordonnance, commis, garçon de bureau	n.m.
19	<b>चबाना</b>	cabānā	mastiquer, mâcher	vb. tr.
5	<b>चबालीस</b>	cabālīs	quarante quatre	nombre 044
10	<b>चमक</b>	camak	éclat, lustre	n.f.
10	<b>चमकदार</b>	camakdār	brillant	adj.
10	<b>चमकना</b>	camaknā	briller, scintiller, s'énerver	vb. int.
10	<b>चमकाना</b>	camakānā	faire briller	vb. tr.
22	<b>चमत्कार</b>	camatkār	miracle	n.m.
19	<b>चमार</b>	camār	cordonnier (terme d'injure)	n.m.
16	<b>चम्मच</b>	cammac	cuillère	n.m.
20	<b>चरखा</b>	carkhā	rouet	n.m.
21	<b>चल</b>	cal	mobile, instable, transitoire, variable	adj.
3	<b>चलना</b>	calnā	marcher, avancer, bouger	vb. int.
5	<b>चलाना</b>	calānā	faire marcher, conduire	vb. tr.
16	<b>चश्मा</b>	caśmā	lunettes, fontaine, source	n.m.
16	<b>चाकू</b>	cāqū	couteau	n.m.
Fam.	<b>चाचा</b>	cācā	oncle (frère cadet du père)	n.m.
Fam.	<b>चाची</b>	cācī	tante (épouse du frère cadet du père)	n.f.
16	<b>चादर</b>	cādar	drap, voile (des femmes)	n.f.
3	<b>चाबी</b>	cābī	clef	n.f.
1	<b>चाय</b>	cāy	thé	n.f.
16	<b>चायदानी</b>	cāydānī	théière	n.f.
1	<b>चार</b>	cār	quatre	nombre 004
2	<b>चारों</b>	cārō	tous les quatre	pron.

21	<b>चाल</b>	cāl	mouvement, marche, vitesse	n.m.
10	<b>चालक</b>	cālak	chauffeur, conducteur	n.m.
19	<b>चालाक</b>	cālāk	rusé, habile	adj.
4	<b>चालीस</b>	cālis	quarante	nombre 040
8	<b>चावल</b>	cāval	riz	n.m.
5	<b>चाहना</b>	cāhanā	vouloir, désirer, souhaiter	vb. tr.
18	<b>चाहे</b>	cāhe	ou...ou bien, même si...pourtant	adv.
18	<b>चाहे X... अथवा Y ...</b>	cāhe X... athvā Y....	soit X.... soit Y..., pourtant X.... cependant Y...	adv.
18	<b>चाहे X...चाहे Y ...</b>	cāhe X... cāhe Y....	soit X.... soit Y..., pourtant X.... cependant Y...	adv.
18	<b>चाहे X...या Y ...</b>	cāhe X... yā Y....	soit X.... soit Y..., pourtant X.... cependant Y...	adv.
11	<b>चिंता</b>	cintā	anxiété, souci, inquiétude	n.f.
23	<b>चिता</b>	citā	bûcher funéraire	n.f.
17	<b>चिट्ठी</b>	cittihī	lettre, missive	n.f.
3	<b>चिड़िया</b>	ciriyā	oiseau, moineau	n.f.
10	<b>चित्रकार</b>	citrakār	artiste peintre	n.m.
7	<b>चिल्लाना</b>	cillānā	crier, hurler	vb. int.
7	<b>चिल्लाहट</b>	cillāhat	cri,hurlement	n.f.
4	<b>चीज़</b>	cīz	chose, objet, article	n.f.
6	<b>चीता</b>	cītā	panthère	n.m.
19	<b>चीता</b>	cītā	désiré, souhaité	adj.
19	<b>चीता</b>	cītā	léopard, panthère	n.m.
13	<b>चुकना</b>	cuknā	être terminé, être réglé (terminatif ≈ déjà)	vb. int.
12	<b>चुनना</b>	cunnā	choisir, sélectionner	vb. tr.
2	<b>चुन्नी</b>	cunnī	écharpe	n.f.
23	<b>चुराना</b>	curānā	voler, dérober	vb. tr.
23	<b>चूसना</b>	cūsanā	sucer, exploiter	vb. tr.
22	<b>चूंकि</b>	cunki	puisque	adv.
6	<b>चूहा</b>	cūhā	rat	n.m.

20	चेतना	cetnā	conscience, animation	n.f.
20	चेतना	cetnā	être conscient, être animé, s'animer	vb. int.
17	चेतावनी	cetāvnī	avertissement	n.f.
13	चेहरा	ceharā	visage, face, masque	n.m.
17	चैन	cain	repos, tranquillité, calme	n.m.
12	चोर	cor	voleur, cambrioleur	n.m.
23	चौकी	caukī	poste de police	n.f.
10	चौरानवे	caurānave	quatre-vingt quatorze	nombre 094
4	चौंतीस	cauntīs	trente quatre	nombre 034
8	चौंसठ	caunsath	soixante quatre	nombre 064
14	चौड़ा	caurā	large, vaste	adj.
5	चौथा	04 cauthā	quatrième	nombre ord.
2	चौदह	caudah	quatorze	nombre 014
3	चौबीस	caubīs	vingt quatre	nombre 024
9	चौरासी	caurāsī	quatre-vingt quatre	nombre 084
7	चौवन	cauvan	cinquante quatre	nombre 054
9	चौहत्तर	cauhattar	soixante quatorze	nombre 074
9	छक्के	chakke	unité de six (au cricket)	n.m.
5	छठा	06 chathā	sixième	nombre ord.
3	छत	chat	plafond, toit	n.f.
4	छतीस	chattīs	trente six	nombre 036
10	छपना	chapnā	être imprimé	vb. int.
10	छपाई	chapāī	impression (d'imprimerie)	n.f.
7	छप्पन	chappan	cinquante six	nombre 056
3	छब्बीस	chabbīs	vingt six	nombre 026
9	छलाँगना	chalāgnā	sauter	vb. int.
9	छलांग	chalāg	bond, saut	n.f.
9	छलांग मारना	chalāg mārnā	sauter, bondir	vb. tr.

16	छाता	chātā	parapluie	n.m.
9	छाती	chātī	sein, poitrine	n.f.
1	छात्र	chātr	étudiant	n.m.
1	छात्रा	chātrā	étudiante	n.f.
17	छानना	chānanā	filtrer, passer, chercher, tamiser	vb. tr.
10	छापना	chāpanā	imprimer	vb. tr.
22	छाया	chāyā	ombre	n.f.
6	छिपकली	chipkaī	lézard	n.f.
15	छिपना	chipnā	se cacher, être caché	vb. int.
15	छिपाना	chipānā	cacher, dissimuler, voiler, déguiser	vb. tr.
10	छियानवे	chiyānave	quatre-vingt seize	nombre 096
5	छियालीस	chiyālīs	quarante six	nombre 046
8	छियासठ	chiyāsath	soixante six	nombre 066
9	छियासी	chiyāsī	quatre-vingt six	nombre 086
9	छिहतर	chihattar	soixante seize	nombre 076
4	छुट्टी	chutṭī	congé, vacances	n.f.
9	छुड़ाई	churāī	libération	n.f.
9	छुड़ाना	churānā	libérer, faire lâcher	vb. tr.
15	छुपना	chupnā	se cacher, être caché	vb. int.
15	छुपाना	chupānā	cacher, dissimuler, voiler, déguiser	vb. tr.
5	छूटना	chūṭnā	être abandonné, être libéré	vb. int.
19	छूत	chūt	fait d'être touché, contamination, impureté	n.f.
19	छूत का-की	chūt kā / kī	contagieux	adj.
19	छूत की बिमारी	chūt kī bimārī	maladie contagieuse	n.f.
19	छूत-छात	chūt chāt	intouchabilité	n.m.
19	छूना	chūnā	toucher, sentir	vb. tr.
1	छे	che	six	nombre 006
9	छेकना	cherānā	taquiner, irriter, exciter	vb. tr.

23	<b>छेद</b>	ched	trou	n.m.
1	<b>छोटा</b>	chotā	petit, court	adj.
5	<b>छोड़ना</b>	chorñā	libérer, abandonner, laisser tomber	vb. tr.
19	<b>जंगल</b>	jañgal	forêt, bois (jungle)	n.m.
13	<b>जग</b>	jag	monde, univers	n.m.
8	<b>जगना</b>	jagnā	s'éveiller, être réveillé	vb. int.
19	<b>जगह</b>	jagah	place, endroit, espace	n.f.
8	<b>जगाना</b>	jagānā	éveiller, réveiller	vb. tr.
16	<b>जड़</b>	jar	racine	n.f.
14	<b>जन</b>	jan	peuple, public, gens	n.m.
14	<b>जनता</b>	jantā	gens, peuple, public	n.m.
21	<b>जनमना</b>	janamnā	donner naissance	vb. tr.
21	<b>जन्मपत्री</b>	janma-patrī	horoscope	n.f.
5	<b>जनाब</b>	janāb	Monsieur	n.m.
21	<b>जन्म</b>	janma	naissance, vie, origine	n.m.
21	<b>जन्म देना (X को)</b>	janma denā (X ko)	donner naissance (à X)	vb. tr.
21	<b>जन्म लेना</b>	janma lenā	naître, être né	vb. int.
21	<b>जन्मदिन</b>	janmadin	date de naissance, jour anniversaire	n.m.
21	<b>जन्मना</b>	janmanā	être né	vb. int.
21	<b>जन्माना</b>	janmānā	donner naissance	vb. tr.
15	<b>जप</b>	jap	répétition du nom de Dieu (prière)	n.m.
15	<b>जप करना</b>	jap karnā	prier à voix basse, égrener son chapelet	vb. tr.
15	<b>जपना</b>	japnā	prier à voix basse, égrener son chapelet	vb. tr.
5	<b>जब</b>	jab	quand, où	adv.
6	<b>जब तक... तब तक..</b>	jab tak ... tab tak	jusqu'à ce que ... alors...	loc. adv
6	<b>जब से... तब से..</b>	jab se .... tab se	depuis que ... alors ....	loc. adv
6	<b>जब....तब....</b>	jab .... tab....	quand ..... alors ...	loc. adv
16	<b>ज़बरदस्त</b>	zabardasta	fort, puissant, violent	adj.

16	<b>जबरदस्ती</b>	zabardastī	force, violence	n.f.
16	<b>जबरदस्ती करना</b> (किसी के साथ)	zabardastī karnā (kisī ke sāth)	contraindre, forcer quelqu'un	expr. verb.
16	<b>जबरदस्ती से</b>	zabardastī se	par force, de force	adv.
17	<b>जमना</b>	jamnā	se figer, se geler, s'établir, être implanté	vb. int.
23	<b>जमा करना</b>	jamā karnā	rassembler, amasser	vb. int.
Fam.	<b>जमाई</b>	jamāī	beau-fils, gendre	n.m.
23	<b>जमात</b>	jamāt	assemblée, groupe	n.f.
17	<b>जमाना</b>	jamānā	faire geler, faire coaguler	vb. tr.
13	<b>जमाना</b>	zamānā	temps, âge, époque, période	n.m.
17	<b>जमाव</b>	jamāv	solidification, concentration, accumulation	n.m.
4	<b>जमीन</b>	zamīn	terre, sol	n.f.
4	<b>जमीन्दार</b>	zamīndār	propriétaire foncier	n.m.
4	<b>जरा</b>	zarā	un peu	adj.
4	<b>जरा</b>	zarā	un peu, un moment	adv.
3	<b>ज़रूर</b>	zarūr	certainement, sûrement	adv.
3	<b>ज़रूरत</b>	zarūrat	besoin, nécessité	n.f.
16	<b>ज़रूरत पड़ने पर</b>	zarūrat pārne par	en cas de besoin	loc. adv.
11	<b>ज़रूरत होना</b> (किसी को...की)	zarūrat honā (kisī ko...kī)	avoir besoin de ...	vb. tr.
3	<b>ज़रूरी</b>	zarūrī	important, nécessaire	adj.
1	<b>जर्मन</b>	jarman	allemand	adj.
12	<b>जलन</b>	jalan	brûlure, jalousie	n.f.
12	<b>जलना</b>	jalnā	brûler, être enflammé	vb. int.
20	<b>जलपान</b>	jalpān	collation, petit déjeuner	n.m.
13	<b>जलवायु</b>	jalvāyu	climat	n.f.
13	<b>जलवायु विज्ञान</b>	jalvāyu-vijñān	météorologie	n.m.
12	<b>जलाना</b>	jalānā	allumer, enflammer, brûler	vb. tr.
1	<b>जलेबी</b>	jalebī	jalebi	n.f.
11	<b>जल्दी</b>	jaldī	hâte	n.f.

11	<b>जल्दी होना (किसी को)</b>	jaldī honā (kisī ko)	être pressé	vb. int.
16	<b>जवाब</b>	javāb	réponse, réplique	n.m.
16	<b>जशन</b>	jaśan	fête, festivité, célébration	n.m.
16	<b>ज़हर</b>	zahar	poison	n.m.
6	<b>जहाँ</b>	jahā	où	adv.
6	<b>जहाँ तक.. वहाँ तक..</b>	jahā tak... vahā tak...	jusqu'où.... jusqu'à....	loc. adv
6	<b>जहाँ से... वहाँ से...</b>	jahā se... vahā se...	d'où.... de là....	loc. adv
6	<b>जहाँ... वहाँ...</b>	jahā... vahā...	là où... là....	loc. adv
9	<b>जाँघ</b>	jāgh	cuisse	n.f.
13	<b>जाड़ा</b>	jārā	hiver, froid	n.f.
14	<b>जाति</b>	jāti	caste, sous-caste, race, genre	n.f.
14	<b>जातिवाद</b>	jātivād	castéisme, racisme	n.m.
21	<b>जादू</b>	jādū	magie, charme, envoûtement	n.m.
21	<b>जादूगर</b>	jādūgar	magicien, sorcier	n.m.
6	<b>जानना</b>	jānnā	savoir, connaître	vb. tr.
20	<b>जान-पहचान</b>	jān-pahacān	connaissance, relation	n.f.
6	<b>जानवर</b>	jānvar	animal, bête	n.m.
3	<b>जाना</b>	jānā	partir, aller	vb. int.
7	<b>जायकल</b>	jāykal	muscade (noix de)	n.m.
22	<b>जिम्मेदार</b>	zimmedar	responsable	adj.
22	<b>रिल्ड</b>	jild	peau, reliure, couverture	n.f.
19	<b>जी</b>	jī	esprit, cœur	n.m.
Fam.	<b>जीजा</b>	jījā	beau-frère (mari de la sœur aînée)	n.m.
Fam.	<b>जीजी</b>	jījī	sœur aînée	n.f.
9	<b>जीभ</b>	jībh	langue	n.f.
7	<b>ज़ीरा</b>	zīrā	cumin (en grain)	n.m.
21	<b>जीव</b>	jīva	créature, être vivant, vie	n.m.
21	<b>जीवन</b>	jīvan	vie, existence	n.m.

21	<b>जीवन-चरित</b>	jīvan-carit	biographie	n.m.
21	<b>जीवन-तल</b>	jīvan-tal	niveau de vie	n.m.
21	<b>जीवन-स्तर</b>	jīvan-star	niveau de vie	n.m.
21	<b>जीवित</b>	jīvit	vivant, doué de puissance	adj.
17	<b>जुआ</b>	juā	jeu de hasard	n.m.
15	<b>जुदा</b>	judā	séparé, isolé	adj.
17	<b>जुरमाना</b>	jurmānā	amende, pénalité	n.m.
10	<b>जुलाहा</b>	jurjhā	tisserand	n.m.
8	<b>जूता</b>	jūtā	chaussure	n.f.
Fam.	<b>जेठ</b>	jeth	beau-frère (frère aîné du mari)	n.m.
Fam.	<b>जेठानी</b>	jethānī	belle-sœur (femme du frère aîné du mari)	n.f.
2	<b>जेब</b>	jeb	poche	n.f.
6	<b>ज़ेवर</b>	zevar	bijou, ornement	n.m.
13	<b>जोडा</b>	jorā	couple, paire	n.m.
13	<b>जोड़ी</b>	jorī	couple, paire	n.f.
12	<b>जोर</b>	zor	force, pouvoir, puissance	n.m.
12	<b>जोरदार</b>	zordār	fort, puissant, influent	adj.
13	<b>ज़्यादा</b>	zyādā	trop, beaucoup	adj.
23	<b>झंडा</b>	jhandā	drapeau	n.m.
15	<b>झगड़ना</b>	jhagṛnā	se quereller, avoir une altercation	vb. int.
15	<b>झगड़ा</b>	jhagṛā	querelle, dispute	n.m.
15	<b>झगड़ा खड़ा करना</b>	jhagṛā kharā karnā	soulever une dispute	vb. tr.
6	<b>झटका</b>	jhaṭkā	secousse, choc, embardée	n.m.
23	<b>झपटना</b>	jhapaṭanā	bondir	vb. int.
18	<b>झल्लाना</b>	jhallānā	être irrité, être en colère, gronder	vb. int.
4	<b>झाँकना</b>	jhāknā	jeter un coup d'œil, épier	vb. tr.
15	<b>झाँकी</b>	jhākī	coup d'œil furtif	n.f.
16	<b>झाइ</b>	jhārū	balai	n.m.

6	<b>झींगा</b>	jhīṅgā	criquet, grillon (crevette ?)	n.f.
14	<b>झुलसाना</b>	jhulasanā	être carbonisé	vb. int.
6	<b>झूमना</b>	jhūmnā	se balancer, tituber	vb. int.
15	<b>झूलना</b>	jhūlnā	balancer, osciller, être en suspens	vb. tr.
1	<b>झोला</b>	jholā	sac	n.m.
23	<b>टटोलना</b>	ṭatolanā	fouiller, tâter, tâtonner	vb. tr.
16	<b>टपक जाना</b>	ṭapak jānā	arriver à l'improviste	vb. int.
16	<b>टपक पड़ना</b>	ṭapak paṛnā	arriver à l'improviste	vb. int.
16	<b>टपकना</b>	ṭapaknā	couler, goutter, fuir, tomber (fruits)	vb. int.
8	<b>टमाटर</b>	ṭamāṭar	tomate	n.m.
9	<b>टाँग</b>	ṭāṅg	jambe	n.f.
14	<b>टुकड़ा</b>	ṭukarā	morceau	n.m.
8	<b>टूटना</b>	ṭūṭnā	se casser, se briser, être cassé	vb. int.
12	<b>टोकरा</b>	ṭokrā	grand panier	n.m.
12	<b>टोकरी</b>	ṭokrī	petit panier	n.f.
22	<b>टोली</b>	ṭolī	équipe	n.f.
11	<b>ठंड</b>	ṭhaṇḍa	froid	n.f.
11	<b>ठंड पड़ना</b>	ṭhaṇḍa paṛnā	faire froid	vb. int.
11	<b>ठंड लगना (किसी को)</b>	ṭhaṇḍa lagnā (kisi ko)	avoir froid	vb. int.
1	<b>ठंडा</b>	ṭhaṇḍā	froid	adj.
17	<b>ठहरना</b>	ṭaharnā	séjourner, s'arrêter (quelque part), rester	vb. int.
9	<b>ठुड़की</b>	ṭhudqī	menton	n.f.
23	<b>ठगमगाना</b>	ṭagamagānā	chanceler, trébucher	vb. int.
23	<b>ठगर</b>	ṭagar	chemin	n.f.
16	<b>ठट्टा</b>	ṭaṭṭā	bouchon	n.m.
16	<b>ठब्बा</b>	ṭabbā	boîte, tiroir, wagon (de train)	n.m.
11	<b>ठर</b>	ṭar	peur, crainte	n.m.
11	<b>ठर लगना (किसी को X से)</b>	ṭar lagnā (kisi ko X se)	avoir peur de X, être effrayé par X	vb. int.

19	ଡରନା (X ସେ)	ɖarnā (X se)	avoir peur de X, être effrayé par X	vb. int.
19	ଡରପୋକ	ɖarpok	timide, lâche, poltron, peureux	adj.
19	ଡରାନା	ɖarānā	effrayer, intimider	vb. tr.
23	ଡାକ୍ରୁ	ɖākū	bandit	n.m.
10	ଡାକିୟା	ɖākiyā	facteur	n.m.
11	ଡାଲନା	ɖālnā	verser, pousser, porter ...	vb. tr.
15	ଝୁବନା	ɖūbnā	être noyé, se noyer, plonger	vb. int.
15	ଝୁବାନା	ɖūbānā	noyer, immerger, plonger dans	vb. tr.
8	ଡେଛ	ɖerh	un et demi	adj.
22	ଫୋର	ɖhang	façon, manière	n.m.
20	ଢକନା	ɖhaknā	couvrir, cacher, voiler, dissimuler	vb. tr.
12	ଢକନା	ɖhaknā	être couvert	vb. int.
16	ଢକକନ	ɖhakkān	couvercle	n.m.
8	ଢାଈ	ɖhāī	deux et demi	adj.
8	ଢାବା	ɖhābā	restaurant de bord de route	n.m.
16	ଢିଲା	ɖhilā	lâche, relâché, mou, flottant	adj.
23	ଝୁଣନା	ɖhūndhanā	chercher	vb. tr.
21	ଦେର	ɖher	tas, pile, amoncellement, amas	n.m.
21	ଦେର	ɖher	abondant	adj.
21	ଦେର କରନା	ɖher karnā	entasser, amasser, porter un coup, tuer	vb. tr.
21	ଦେର ସା	ɖher sā	quantité de, tas de	adj.
21	ଦେର ସା	ɖher sā	quantité de, tas de	n.m.
21	ଦେର ସାରେ	ɖher sāre	quantité de, tas de	adj.
21	ଦେର ହୋନା	ɖher honā	être en ruines, s'écrouler, mourir	vb. int.
17	ତଂଗ	taṅg	fatigué, soucieux, serré, étroit	adj.
17	ତଂଗ ଆନା	taṅg ānā	être fatigué, être découragé	vb. int.
17	ତଂଗ କରନା	taṅg karnā	affliger, embêter, agacer	vb. tr.
17	ତଂବାକୁ	tambākū	tabac	n.m.

6	<b>तक</b>	tak	même, jusqu'à	adv.
11	<b>तङ्गलीफ़</b>	taqlīf	peine, affliction, maladie	n.f.
16	<b>तकिया</b>	takiyā	oreiller, traversin	n.m.
16	<b>तत्काल</b>	tatkāl	tout de suite, sur le champ	adv.
23	<b>तन</b>	tan	corps	n.m.
19	<b>तनखाह</b>	tankhāha	salaire, paie	n.f.
16	<b>तपाक से</b>	tapāk se	chaleureusement, à bras ouverts	adv.
5	<b>तब</b>	tab	alors, après, en conséquence	adv.
21	<b>तबाह</b>	tabāha	ruiné, détruit	adj.
21	<b>तबाह करना</b>	tabāha karnā	détruire	vb. tr.
21	<b>तबाही</b>	tabāhī	destruction, ruine, perte, désastre	n.f.
11	<b>तबीयत</b>	tabīyat	humeur, santé, tempérament	n.f.
13	<b>तमाम</b>	tamām	tout, entier	adj.
4	<b>तमाशा</b>	tamāśā	spectacle, divertissement	n.m.
4	<b>तमीज़</b>	tamīz	savoir-vivre	n.f.
2	<b>तरफ़</b>	taraf	direction, côté	n.f.
12	<b>तरबूज़</b>	tarbūz	pastèque	n.m.
5	<b>तरह</b>	tarah	sorte, espèce, genre, méthode, manière	n.f.
16	<b>तराजू</b>	tarāzū	balance, bascule	n.f.
5	<b>तरीक़ा</b>	tarīqā	méthode, manière, moyen	n.m.
22	<b>तर्क</b>	tark	raisonnement, argumentation	n.m.
18	<b>तल</b>	tal	surface, plancher, sol, fond	n.m.
12	<b>तलाक़</b>	talāq	divorce	n.m.
12	<b>तलाकशुदा</b>	talāqśudā	divorcé	adj.
23	<b>तलाश</b>	talāša	recherche, enquête	n.f.
23	<b>तलाशना</b>	talāšanā	rechercher	vb. tr.
23	<b>तलाश करना (की)</b>	talāša karnā (kī)	rechercher	vb. tr.
3	<b>तशरीफ़</b>	taśrif	siège, honneur	n.f.

10	तस्वीर	tasvīr	image, tableau, photo	n.m.
Fam.	ताई	tāī	tante (épouse du frère aîné du père)	n.f.
Fam.	ताऊ	tāū	oncle (frère aîné du père)	n.m.
15	ताक	tāk	regard fixe	n.f.
15	ताक रखना (किसी पर)	tāk rakhnā (kisī par)	surveiller quelqu'un	vb. tr.
15	ताक्रत	tāqat	pouvoir, force, puissance	n.f.
15	ताक्रतवार	tāqatvār	puissant, fort	adj.
15	ताकना	tāknā	regarder fixement, guetter	vb. tr.
14	ताकि	tāki	pour que, afin que	adv.
23	ताज	tāj	couronne	n.m.
1	ताजा	tāzā	frais	adj.
13	तापमान	tāpmān	température	n.m.
4	तारा	tārā	étoile	n.m.
10	ताल	tāl	mesure, rythme, cycle rythmique	n.m.
3	ताला	tālā	serrure, cadenas	n.m.
17	तालाब	tālāb	étang, lac, mare	n.m.
9	ताली	tālī	clef	n.f.
3	ताश	tāś	carte, jeu de carte	n.m.
6	तितली	titlī	papillon	n.f.
23	तिर्थ	tirtha	pèlerinage (hindou)	n.m.
7	तिरपन	tirpan	cinquante trois	nombre 053
8	तिरसठ	tirsath	soixante trois	nombre 063
10	तिरानवे	tirānave	quatre-vingt treize	nombre 093
9	तिरासी	tirāsī	quatre-vingt trois	nombre 083
7	तिल	til	sésame, grain de beauté, pupille	n.m.
9	तिहतर	tihattar	soixante treize	nombre 073
1	तीन	tīn	trois	nombre 003
2	तीनों	tīnō	tous les trois	pron.

3	तीस	tīs	trente	nombre 030
5	तीसरा	03 tīsrā	troisième	nombre ord.
5	तीसवाँ	30 tīsvā	trentième	nombre ord.
17	तुड़वाना	turvānā	faire casser, faire démolir	vb. tr.
1	तुम	tum	tu / nous (égal, pluriel)	pron. pers.
16	तुरन्त	turanta	immédiatement, rapidement	adv.
13	तुलनात्मक रूप से	tulnātmak rūp se	comparativement	
1	तू	tū	tu (familier, toujours singulier)	pron. pers.
13	तूफान	tūfān	tempête	n.m.
16	तूली	tūlī	pinceau, coton	n.f.
3	तेईस	teīs	vingt trois	nombre 023
13	तेज	tez	pointu, perçant, mordant, vif	adj.
7	तेजपत्ता	tejpattā	laurier (feuille de)	n.f.
2	तेरह	terah	treize	nombre 013
5	तैंतालीस	taintālīs	quarante trois	nombre 043
4	तैंतीस	taintīs	trente trois	nombre 033
14	तैयार	taiyār	prêt, favorable, robuste, gros, gras	adj.
14	तैयार करना	taiyār karnā	rendre prêt, préparer	vb. tr.
14	तैयार होना	taiyār honā	être prêt, se préparer	vb. int.
14	तैयारी	taiyārī	préparatifs	n.f.
8	तोड़ना	tornā	casser	vb. tr.
6	तोता	totā	perroquet	n.m.
5	तौर	taur	méthode, manière, moyen	n.m.
16	तौलिया	tauliyā	serviette de toilette	n.m.
23	त्याग	tyāga	abandon, renoncement	n.m.
23	त्यागाना	tyāgānā	abandonner, renoncer	n.m.
23	त्याग करना	tyāga karnā	abandonner, renoncer	vb. tr.
16	त्यौहार	tyauhār	fête, festivité	vb. tr.

16	<b>ਤ੍ਯੌਹਾਰ ਮਨਾਨਾ</b>	tyauhār manānā	célébrer une fête	vb. tr.
15	<b>ਥਕ ਜਾਨਾ</b>	thak jānā	être fatigué, en avoir assez	vb. int.
15	<b>ਥਕਨਾ</b>	thaknā	être fatigué, las	vb. int.
15	<b>ਥਕਾਨ</b>	thakān	fatigue	n.f.
15	<b>ਥਕਾਨਾ</b>	thakānā	fatiguer	vb. tr.
17	<b>ਥਾਨਾ</b>	thānā	commissariat	n.m.
16	<b>ਥਾਲੀ</b>	thālī	plat, plateau	n.f.
23	<b>ਥੂਕਨਾ</b>	thūkanā	cracher	vb. tr.
5	<b>ਥੋੜਾ</b>	thorā	un peu	adj.
5	<b>ਥੋੜਾ</b>	thorā	un peu	adv.
18	<b>ਦਕ਼</b>	dakṣa	habile, efficace, expert	adj.
14	<b>ਦਫਨਾਨਾ</b>	dafanānā	enterrer	vb. tr.
23	<b>ਦਫਤਰ</b>	daftar	bureau (lieu de travail)	n.m.
16	<b>ਦਬਨਾ</b>	dabnā	être pressé, écrasé, opprimé	vb. int.
16	<b>ਦਬਾਨਾ</b>	dabānā	comprimer, écraser, opprimer	vb. tr.
16	<b>ਦਬਾਵ</b>	dabāv	pression, compression, oppression	n.m.
23	<b>ਦਮ</b>	dam	souffle, vie, âme	n.m.
11	<b>ਦਯਾ</b>	dayā	pitié, compassion, clémence	n.f.
11	<b>ਦਯਾ ਆਨਾ (ਕਿਸੀ ਕੋ...ਪਰ)</b>	dayā ānā (kisī ko... par)	avoir de la pitié pour...	vb. int.
17	<b>ਦਰਬਾਰ</b>	darbār	cour (d'un roi, d'une personnalité)	n.m.
3	<b>ਦਰਵਾਜਾ</b>	darvāzā	porte	n.m.
13	<b>ਦਰਜ ਕਰਨਾ</b>	darj karnā	enregistrer	vb. tr.
10	<b>ਦਰਜੀ</b>	darjī	tailleur, couturier	n.m.
11	<b>ਦਰ੍ਦ</b>	darda	douleur, souffrance, peine	n.m.
11	<b>ਦਰ੍ਦ ਹੋਨਾ (ਕਿਸੀ ਕੋ... ਮੈਂ)</b>	dadar honā (kisī ko... mē)	avoir mal à	vb. int.
20	<b>ਦਰਸਕ</b>	darśak	spectateur, observateur	n.m.
20	<b>ਦਰਸਨ</b>	darśan	vue, vision, rencontre	n.m.
15	<b>ਦਲ</b>	dal	parti (politique), groupe, pétale	n.m.

15	<b>दल-दल</b>	dal-dal	marais, marécage	n.m.
19	<b>दलित</b>	dalit	classe exploitée, opprimée (intouchable)	n.m.
8	<b>दवा</b>	davā	médicament, soins médic., remède	n.f.
8	<b>दवाखाना</b>	davākhānā	pharmacie, dispensaire	n.m.
1	<b>दस</b>	das	dix	nombre 010
5	<b>दसवाँ</b>	10 dasvā̄	dixième	nombre ord.
11	<b>दही</b>	dahī	yoghourt, lait caillé	n.m.
12	<b>दहेज़</b>	dahez	dot	n.m.
9	<b>दाँत</b>	dā̄t	dent	n.m.
19	<b>दाई</b>	dā̄ī	sage femme, nourrice	n.f.
9	<b>दाढ़ी</b>	dā̄ṛhī	barbe	n.f.
3	<b>दाता</b>	dātā	donateur	n.m.
Fam.	<b>दादा</b>	dādā	grand-père paternel	n.m.
Fam.	<b>दादी</b>	dādī	grand-mère paternelle	n.f.
14	<b>दान</b>	dān	don, donation, offrande	n.m.
Fam.	<b>दामाद</b>	dāmād	beau-fils, gendre	n.m.
8	<b>दाल</b>	dāl	lentille	n.f.
7	<b>दालचीनी</b>	dālcīnī	cannelle	n.f.
8	<b>दावत</b>	dāvat	festin, grand-repas	n.m.
19	<b>दास</b>	dās	serviteur, esclave	n.m.
3	<b>दिखना</b>	dikhnā	apparaître	vb. int.
17	<b>दिखलवाना</b>	dikhlavānā	faire montrer, faire exposer	vb. tr.
17	<b>दिखलाना</b>	dikhlanā	montrer, présenter, exposer	vb. tr.
11	<b>दिखाई</b>	dikhāī	vue, vision	n.f.
11	<b>दिखाई देना (किसी को)</b>	dikhāī denā (kisi ko...)	apercevoir (pas de erg.)	vb. tr.
3	<b>दिखाना</b>	dikhānā	montrer, présenter, exposer	vb. tr.
3	<b>दिन</b>	din	jour, journée	n.m.
17	<b>दिन-ब-दिन</b>	din-ba-din	jour après jour, de jour en jour	adv. tps

	<b>दिमाग</b>	dimāg	cerveau	n.m.
9	<b>दिल</b>	dil	cœur	n.m.
11	<b>दिलचस्प</b>	dilcaspa	intéressant, divertissant	adj.
11	<b>दिलचस्पी</b>	dilcaspī	intérêt	n.f.
11	दिलचस्पी होना (किसी को..में)	dilcaspī honā (kisī ko... mē)	s'intéresser à, avoir de l'intérêt pour	vb. tr.
23	<b>दिव्य</b>	divya	divin	adj.
Fam.	<b>दीदी</b>	dīdī	sœur aînée	n.f.
17	<b>दीपक</b>	dīpak	lampe	n.m.
3	<b>दीवार</b>	dīvār	mur	n.f.
4	<b>दुकान</b>	dukān	boutique, commerce	n.f.
4	<b>दुकानदार</b>	dukāndār	commerçant, marchand	n.m.
17	<b>दुख</b>	dukh	souffrance, malheur, chagrin	n.m.
13	<b>दुखी</b>	dukhī	malheureux, triste	adj.
13	<b>दुनिया</b>	duniyā	monde, univers, terre, gens, peuple	n.f.
19	<b>दुम</b>	dum	queue, extrémité, fin	n.f.
23	<b>दुरुपयोग</b>	durupayoga	abus, mauvais usage	n.m.
12	<b>दुल्हन</b>	dulhan	jeune mariée	n.f.
1	<b>दूध</b>	dūdh	lait	n.m.
9	<b>दूधिया</b>	dūdhīyā	mélangé avec du lait, laiteux	adj.
2	<b>दूर</b>	dür	loin	adv
23	<b>दूर्लभ</b>	dūrlabha	inaccessible, rare	adj.
12	<b>दूल्हा</b>	dulhā	jeune marié	n.m.
5	<b>दूसरा</b>	dūsrā	deuxième, suivant, autre	adj.
5	<b>दूसरा</b>	02 dūsrā	deuxième	nombre ord.
5	<b>दूसरा</b>	dūsrā	deuxième, suivant, autre	pron.
9	<b>दृश्य</b>	driśya	paysage, vue, spectacle	n.m.
20	<b>दृष्टि</b>	driṣṭi	vue, vision, regard, perception	n.f.
20	<b>दृष्टि डालना</b>	driṣṭi ḍālnā	jeter un coup d'œil	vb. tr.

20	<b>दृष्टि में आना</b>	driṣṭi mē ānā	être en vue, apparaître	vb. int.
20	<b>दृष्टि से (इस)</b>	driṣṭi se (is)	sous cet angle, de ce point de vue	adv.
20	<b>दृष्टि-कोण</b>	driṣṭi-kon̄	point de vue, opinion	n.m.
2	<b>देखना</b>	dekhnā	voir, regarder	vb. tr.
2	<b>देना</b>	denā (irrégulier)	donner	vb. tr.
5	<b>देर</b>	der	durée, délai, retard, moment	n.f.
17	<b>देर आना</b>	der ānā	arriver en retard	vb. int.
17	<b>देर करना</b>	der karnā	retarder, tarder	vb. tr.
11	<b>देर होना (किसी को)</b>	der honā (kisī ko)	être en retard	vb. int.
17	<b>देर-सवेर</b>	der-saver	tôt ou tard	adv. tps
14	<b>देव</b>	dev	dieu, divinité	n.m.
14	<b>देवता</b>	devtā	dieu, divinité	n.m.
Fam.	<b>देवर</b>	devar	beau-frère (frère cadet du mari)	n.m.
Fam.	<b>देवरानी</b>	devrānī	belle-sœur (femme du frère cadet du mari)	n.f.
23	<b>देवलोक</b>	devalok	paradis	n.m.
14	<b>देवा</b>	devā	dieu, divinité	n.m.
19	<b>देवालय</b>	devālaya	temple, séjour des dieux	n.m.
6	<b>देश</b>	des	pays, terre natale	n.m.
6	<b>देशी</b>	desī	local, indigène	adj.
10	<b>देह</b>	deha	corps, personne physique	n.f.
10	<b>देहांत</b>	dehānta	décès, mort	n.m.
20	<b>दैनिक</b>	dainik	quotidien	adj.
20	<b>दैनिक</b>	dainik	quotidien	n.m.
14	<b>दैविक</b>	daivik	divin	adj.
1	<b>दो</b>	do	deux	nombre 002
2	<b>दोनों</b>	donō	tous les deux	pron.
4	<b>दोपहर</b>	dopahar	midi (après-midi)	n.f.
21	<b>दोष</b>	dos	faute, tord, défaut, vice	n.m.

21	दोहरना	doharnā	être répété, doublé, plié en deux	vb. int.
21	दोहरा (दुहरा)	doharā (duharā)	double, plié en deux	adj.
21	दोहरा (दुहरा)	doharā (duharā)	double	n.m.
21	दोहराई	doharāī	répétition, révision, réduplication	n.f.
21	दोहराना (दुहराना)	doharānā (duharānā)	répéter, doubler, dupliquer, réviser	vb. tr.
13	दौलत	daulat	richesse, propriété	n.f.
19	द्वार	dvār	porte, portail, sortie	n.m.
19	द्वारपाल	dvārpāl	gardien, concierge, huissier	n.m.
10	धंधा	dhandhā	occupation, travail, emploi	n.m.
23	धकेलना	dhakelnā	pousser, bousculer	vb. tr.
19	धक्का	dhakkā	poussée, choc, coup, bousculade	n.m.
13	धन	dhan	argent, biens, richesse	n.m.
13	धनवान	dhanvān	riche, fortuné	adj.
13	धनहीन	dhanhīn	pauvre, indigent	adj.
13	धनहीन	dhanhīn	homme pauvre	n.m.
7	धनिया	dhaniyā	coriandre	n.m.
13	धनी	dhanī	riche, opulent	adj.
13	धनी	dhanī	riche, maître, propriétaire	n.m.
22	धमकना	dhamakanā	vibrer	vb. tr.
22	धमकाना	dhamakānā	menacer	vb. int.
16	धमकी	dhamkī	menace	n.f.
19	धरती	dhartī	la terre, le monde	n.f.
23	धरना	dharanā	saisir, apprêhender, placer	vb. tr.
23	धर्म	dharma	religion	n.m.
23	धर्मनिष्ठ	dharmaniṣṭa	pieux, dévot	adj.
6	धीरे	dhīre	lentement, doucement	adv.
15	धुन	dhun	assiduité, marotte, forme musicale	n.f.
17	धुलना	dhulnā	être lavé, être propre, être réparé	vb. int.

17	<b>धुलवाना</b>	dhulvānā	faire laver, faire nettoyer	vb. tr.
4	<b>धूप</b>	dhūp	chaleur, éclat du soleil	n.f.
16	<b>धूम्रपान</b>	dhūmrapān	action de fumer du tabac	n.m.
16	<b>धूल</b>	dhūl	poussière	n.f.
4	<b>धोखा</b>	dhokhā	tromperie, ruse, illusion, escroquerie	n.m.
4	<b>धोखेबाज़</b>	dhokhebāz	trompeur, fourbe	adj.
17	<b>धोना</b>	dhonā	laver, nettoyer, blanchir, effacer	vb. tr.
3	<b>धोबन</b>	dhoban	blanchisseuse	n.f.
3	<b>धोबी</b>	dhobī	blanchisseur	n.m.
11	<b>ध्यान</b>	dhyān	attention, concentration, méditation	n.m.
17	<b>नकली</b>	nakalī	faux, artificiel	adj.
14	<b>न जाने</b>	na jāne	"dieu sait ..."	adv.
5	<b>नगर</b>	nagar	ville	n.m.
12	<b>नचाना</b>	nacānā	faire danser	vb. tr.
2	<b>नज़दीक</b>	nazdīk	près	adv.
5	<b>नज़र</b>	nazar	vue, vision, regard	n.f.
3	<b>नज़ारा</b>	nazārā	paysage, vue	n.m.
21	<b>नतीजा</b>	natijā	conséquence, résultat, conclusion	n.m.
23	<b>नदी</b>	nadī	rivière	n.f.
Fam.	<b>ननद</b>	nanad	belle-sœur (sœur du mari)	n.f.
Fam.	<b>ननदोई</b>	nanadoī	beau-frère (mari de la sœur du mari)	n.m.
11	<b>नफरत</b>	nafrat	haine, mépris	n.f.
11	<b>नफरत होना (किसी को...से)</b>	nafrat honā (kisī ko... se)	éprouver de la haine pour ...	vb. tr.
9	<b>नफीस</b>	nafīs	fin, excellent, exquis	adj.
9	<b>नब्बे</b>	nabbe	quatre-vingt dix	nombre 090
15	<b>नम</b>	nam	humide, mouillé	adj.
7	<b>नमक</b>	namak	sel	n.m.
1	<b>नमस्ते</b>	namaste	bonjour (salutation)	n.f.

13	<b>नमी</b>	namī	humidité, moiteur	n.f.
3	<b>नया</b>	nayā	neuf, nouveau, moderne	adj.
10	<b>नलसाज़</b>	nalasāz	plombier	n.m.
15	<b>नवाब</b>	navāb	nabab, prince, personne vivant dans le luxe	n.m.
9	<b>नवासी</b>	navāsī	quatre-vingt neuf	nombre 089
4	<b>नशा</b>	naśā	intoxication, ivresse	n.m.
4	<b>नशेबाज़</b>	naśebāz	drogué, alcoolique	adj.
20	<b>नहाना</b>	nahānā	se baigner, prendre un bain	vb. int.
1	<b>नहीं</b>	nahī	non, ne pas	adv.
10	<b>नाई</b>	nāī	barbier, coiffeur, caste des barbiers	n.m.
9	<b>नाक</b>	nāk	nez	n.f.
18	<b>नाक़ाबिल</b>	nāqābil	incapable, incompétent	adj.
18	<b>नाखुटा</b>	nākhudā	athée	adj.
18	<b>नाखुश</b>	nākhūś	malheureux, triste, mécontent, tracassé	adj.
9	<b>नाखून</b>	nākhūn	ongle	n.m.
12	<b>नाच</b>	nāc	danse	n.m.
12	<b>नाचना</b>	nācnā	danser	vb. int.
4	<b>नाटक</b>	nāṭak	drame, pièce de théâtre	n.m.
4	<b>नाटकार</b>	nāṭakkār	auteur dramatique, dramaturge	n.m.
Fam.	<b>नातिन</b>	nātin	petite-fille (fille de la fille)	n.f.
Fam.	<b>नाती</b>	nātī	petit-fils (fils de la fille)	n.m.
17	<b>नादान</b>	nādān	naïf, ignorant	adj.
17	<b>नादानी</b>	nādānī	innocence, ignorance	n.f.
Fam.	<b>नाना</b>	nānā	grand-père maternel	n.m.
Fam.	<b>नानी</b>	nānī	grand-mère maternelle	n.f.
18	<b>नापसंद</b>	nāpasand	déplaisant	adj.
1	<b>नाम</b>	nām	nom	n.m.
19	<b>नामंजूरी</b>	nāmañzūrī	rejet, refus, non acceptation	n.f.

1	<b>नामक</b>	nāmak	nommé, appelé, portant le nom de	adj.
1	<b>नामस्कार</b>	namaskār	bonjour (salutation)	n.m.
18	<b>नामालूम</b>	nāmālūm	inconnu, non-identifié	adj.
1	<b>नामी</b>	nāmī	renommé, connu	adj.
18	<b>नामुमिकिन</b>	nāmumkin	impossible	adj.
9	<b>नायक</b>	nāyak	chef, guide, héros	n.m.
9	<b>नायिका</b>	nāyikā	héroïne, entremetteuse	n.f.
7	<b>नारंगी</b>	nāraṅgī	orange (couleur)	adj.
7	<b>नारंगी</b>	nāraṅgī	orange	n.f.
16	<b>नारा</b>	nārā	slogan	n.m.
16	<b>नाराज़</b>	nārāz	en colère, enragé, mécontent	adj.
16	<b>नाराज़गी</b>	nārāzgī	colère, rage, mécontentement	n.f.
12	<b>नारियल</b>	nāriyal	noix de coco	n.m.
23	<b>नारी</b>	nārī	femme	n.f.
18	<b>नालायङ्क</b>	nālāyaq	incompétent, indigne, vaurien	adj.
21	<b>नाश</b>	nāś	destruction, ruine, dévastation	n.m.
21	<b>नाश करना</b>	nāś karnā	détruire	vb. tr.
21	<b>नाशक</b>	nāśak	destructeur, dévastateur	adj.
21	<b>नाशकारी</b>	nāśakārī	destructeur, dévastateur	adj.
12	<b>नाशपाति</b>	nāśpātī	poire	n.f.
21	<b>नाशवाद</b>	nāśvād	nihilisme	n.m.
21	<b>नाशित</b>	nāśit	détruit	adj.
14	<b>ना-समझ</b>	nā-samajh	idiot, imbécile, stupide, sot	adj.
14	<b>ना-समझी</b>	nā-samajhī	inintelligence, stupidité, idiotie	n.f.
5	<b>निकलना</b>	nikalnā	sortir, émerger, apparaître	vb. int.
5	<b>निकालना</b>	nikālnā	faire sortir	vb. tr.
10	<b>निधन</b>	nidhan	destruction, fin, mort, décès	n.m.
10	<b>निन्यानवे</b>	ninyānave	quatre-vingt dix-neuf	nombre 099

18	<b>निपुण</b>	nipuṇ	adroit, habile, doué, efficace	adj.
18	<b>निपुणता</b>	nipuṇtā	dextérité, habileté	n.f.
15	<b>निभना</b>	nibhanā	subsister, être entretenu, accompli	vb. int.
15	<b>निभाना</b>	nibhānā	maintenir, poursuivre, accomplir	vb. tr.
16	<b>नियम</b>	niyam	règle, loi, principe, discipline	n.m.
21	<b>निराकार</b>	nirākār	sans forme, informe, incorporel (dieu)	adj.
15	<b>निराश</b>	nirāś	désespéré, découragé, frustré	adj.
15	<b>निराशा</b>	nirāśā	désespoir, découragement, abattement	n.f.
21	<b>निर्जीव</b>	nirjīva	sans vie, inanimé, mort	adj.
16	<b>निर्णय</b>	nirṇaya	décision, jugement, conclusion	n.m.
21	<b>निर्दोष</b>	nirdoṣ	innocent, sans défaut	adj.
13	<b>निर्धन</b>	nirdhan	désargenté, pauvre	adj.
13	<b>निर्धन</b>	nirdhan	homme désargenté, pauvre	n.m.
13	<b>निर्धनता</b>	nirdhantā	pauvreté	n.f.
21	<b>निर्मल</b>	nirmal	pur, propre, clair, non souillé	adj.
14	<b>निर्माण</b>	nirmāṇ	construction	n.m.
10	<b>निशा</b>	niśā	nuit	n.f.
23	<b>निश्चय</b>	niścaya	décision, détermination	n.m.
21	<b>निश्चल</b>	niścal	immobile, stable, immuable, tranquille	adj.
21	<b>निश्चिंत</b>	niścinta	insouciant, nonchalant, indifférent	adj.
21	<b>निष्पक्ष</b>	niṣpaka	impartial, sans parti-pris, objectif	adj.
21	<b>निष्पाप</b>	niṣpāp	innocent	adj.
21	<b>निस्संकोच</b>	nissaṅkoc	sans hésitation	adj., adv.
22	<b>निहायत</b>	nihāyat	très, extrêmement	adv.
8	<b>नींद</b>	nīnd	sommeil, assoupissement	n.f.
12	<b>नींबू</b>	nīmbū	citron	n.m.
3	<b>नीचा</b>	nīcā	bas	adj.
2	<b>नीचे</b>	nīce	en bas, en dessous	adv.

13	<b>नीरस</b>	nīras	sans jus, fade, insipide, inintéressant	adj.
7	<b>नीला</b>	nīlā	bleu	adj.
14	<b>नुक्सान</b>	nuqsān	dommage / nuisance	n.m.
15	<b>नुक्स</b>	nuqsa	défaut, défectuosité, déficience	n.m.
16	<b>नेक</b>	nek	bon, vertueux	adj.
16	<b>नेकी</b>	nekī	bonté, piété, vertu	n.f.
14	<b>नेता</b>	netā	chef, leader, pionnier	n.m.
10	<b>नैशिक</b>	naiśik	nocturne	adj.
1	<b>नौ</b>	nau	neuf	nombre 009
14	<b>नौकर</b>	naukar	serviteur, domestique, employé	n.m.
5	<b>नौवाँ</b>	09 nauvāँ	neuvième	nombre ord.
23	<b>न्याय</b>	nyāya	justice	n.m.
3	<b>पंखा</b>	pañkhā	ventilateur, éventail	n.m.
14	<b>पंडित</b>	pañdit	brahmane, savant, érudit	n.m.
2	<b>पंद्रह</b>	pandrah	quinze	nombre 015
6	<b>पकड़ना</b>	pakarnā	prendre, saisir, attraper	vb. tr.
6	<b>पकड़ाना</b>	pakrānā	faire attraper, livrer	vb. tr.
3	<b>पकना</b>	paknā	mûrir, parfaire, être cuit	vb. int.
3	<b>पकाना</b>	pakānā	cuire, faire mûrir	vb. tr.
3	<b>पक्का</b>	pakkā	mûr, cuit, ferme, solide	adj.
14	<b>पक्ष</b>	pakṣa	côté, flanc, aile	n.m.
6	<b>पक्षी</b>	pakṣī	oiseau	n.f.
7	<b>पचपन</b>	pacpan	cinquante cinq	nombre 055
9	<b>पचहत्तर</b>	pacahattar	soixante quinze	nombre 075
10	<b>पचानवे</b>	pacānave	quatre-vingt quinze	nombre 095
5	<b>पचास</b>	pacās	cinquante	nombre 050
9	<b>पचासी</b>	pacāsī	quatre-vingt cinq	nombre 085
3	<b>पच्चीस</b>	paccīs	vingt cinq	nombre 025

21	<b>ਪਟਕਨਾ</b>	paṭknā	jeter par terre	vb. tr.
22	<b>ਪੜਨਾ</b>	pannā	feuille, page	n.m.
10	<b>ਪੜਨਾ</b>	parñā	être déposé, être tombé, arriver	vb. int.
8	<b>ਪੜੋਸ</b>	paros	voisinage, proximité	n.m.
8	<b>ਪੜੋਸਿਨ</b>	parosin	voisine	n.f.
8	<b>ਪੜੋਸੀ</b>	parosi	voisin	n.m.
6	<b>ਪੜਨਾ</b>	parhnā	lire, étudier	vb. tr.
13	<b>ਪੜਾਈ</b>	parhāī	études, éducation	n.f.
6	<b>ਪੜਾਨਾ</b>	parhānā	enseigner, éduquer, instruire	vb. tr.
13	<b>ਪਤੜਖਡ</b>	patjhar	automne, chute des feuilles	n.m.
14	<b>ਪਤਲਾ</b>	patlā	mince, tenu, fin, étroit	adj.
8	<b>ਪਤਾ</b>	patā	information, connaissance	n.m.
8	ਪਤਾ ਹੋਨਾ (ਕਿਸੀ ਕੋ)	patā honā (kisī ko)	être connu, informé, savoir	vb. int.
Fam.	<b>ਪਤੀ</b>	patī	mari, époux	n.m.
14	<b>ਪਤੀਲਾ</b>	patīlā	casserole	n.m.
9	<b>ਪਤਥਰ</b>	patthar	pierre, personne sans cœur	n.m.
Fam.	<b>ਪਤੀ</b>	patnī	femme, épouse	n.f.
17	<b>ਪਤ्र</b>	patra	lettre, feuille, papier, message	n.m.
10	<b>ਪਤਰਕਾਰ</b>	patrakār	journaliste	n.m.
10	<b>ਪਤ੍ਰਿਕਾ</b>	patrikā	magazine, revue	n.f.
18	<b>ਪਦ</b>	pad	pied, pas, poste (administratif), rang	n.m.
23	<b>ਪਦਕ</b>	padak	médaille	n.m.
8	<b>ਪਧਾਰਨਾ</b>	padhārnā	entrer, s'avancer (respectueux)	vb. int.
8	<b>ਪਨੀਰ</b>	panīr	fromage	n.m.
12	<b>ਪਪੀਟਾ</b>	papīṭā	papaye	n.m.
2	<b>ਪਰ</b>	par	sur	post pos.
20	<b>ਪਰਂਪਰਾ</b>	paramparā	tradition	n.f.
20	<b>ਪਰਂਪਰਿਕ</b>	paramparik	traditionnel	adj.

23	<b>परखना</b>	parakhanā	juger, tester	vb. tr.
16	<b>परदा</b>	pardā	rideau, voile, écran	n.m.
5	<b>परसौ</b>	parsō	après demain, avant-hier	adv.tps
14	<b>परिक्रमा</b>	parikramā	circumambulation, révolution (tour)	n.f.
15	<b>परिचय</b>	paricaya	introduction, connaissance	n.m.
21	<b>परिणाम</b>	pariṇām	conséquence, résultat, conclusion	n.m.
14	<b>परिनगर</b>	parinagar	banlieue	n.m.
13	<b>परिभाषा</b>	paribhāṣā	définition	n.f.
14	<b>परिमाप</b>	parimāp	périmètre	n.f.
	<b>परिश्रम</b>	parishram	travail, dur labeur	n.m.
14	<b>परिस्थिति</b>	paristhiti	circonstances	n.f.
12	<b>परीक्षण</b>	parīkṣāṇ	examen, test, essai	n.m.
12	<b>परीक्षण करना</b>	parīkṣāṇ karnā	tester, examiner, essayer	vb. tr.
11	<b>परीक्षा</b>	parīkṣā	examen, test, essai	n.m.
12	<b>परीक्षा लेना</b>	parīkṣā lenā	tester, examiner, essayer	vb. tr.
18	<b>परोपकार</b>	paropkār	bienveillance, altruisme, charité	n.m.
6	<b>पर्यटक</b>	paryatāk	touriste	n.m.
12	<b>पर्यावरण</b>	paryāvaraṇ	environnement	n.m.
23	<b>पर्वत</b>	parvat	montagne	n.m.
3	<b>पलंग</b>	palaṅg	lit	n.m.
9	<b>पलक</b>	palak	paupière	n.f.
22	<b>पलटना</b>	palatana	inverser, retourner, changer	vb. tr.
9	<b>पसंद</b>	pasand	apprécié, approuvé, choisi	adj.
9	<b>पसंद</b>	pasand	choix, préférence, goût	n.f.
9	<b>पसंद आना (किसी को)</b>	pasand ānā	aimer bien, apprécier	vb. tr.
9	<b>पसंद करना</b>	pasand karnā	choisir, préférer, aimer	vb. tr.
9	<b>पसंदीदा</b>	pasandīdā	aimé, choisi, plaisant	adj.
16	<b>पसीना</b>	pasīnā	sueur	n.m.

20	<b>पहचान</b>	pahacān	connaissance, identification	n.f.
20	<b>पहचान करना (X की)</b>	pahacān karnā (X kī)	reconnaitre, identifier X	vb. tr.
20	<b>पहचानना (X को)</b>	pahacānnā (X ko)	reconnaitre, identifier X	vb. tr.
8	<b>पहनना</b>	pahannā	porter des vêtements (bijoux)	vb. tr.
5	<b>पहला</b>	01 pahalā	premier	nombre ord.
10	<b>पहला</b>	pahalā	premier, principal, antérieur	adj.
1	<b>पहले</b>	pahale	d'abord, auparavant, au début, avant	adv. tps.
8	<b>पहुँचना</b>	pahūcnā	arriver, accéder, atteindre	vb. int.
8	<b>पहुँचाना</b>	pahūcānā	faire arriver, accompagner	vb. tr.
1	<b>पाँच</b>	pānc	cinq	nombre 005
5	<b>पाँचवाँ</b>	05 pāchvā	cinquième	nombre ord.
9	<b>पाँव</b>	pāva	pied, jambe, support	n.m.
8	<b>पान</b>	pān	bétel, feuille de bétel	n.m.
21	<b>पाप</b>	pāp	mauvaise action, péché	n.m.
Fam.	<b>पारिवारिक</b>	pārivārik	familial	adj.
Fam.	<b>पारिवारिक संबंध</b>	pārivārik sambandha	relations familiales	n.m.
15	<b>पार्टी</b>	pārtī	parti (politique)	n.m.
8	<b>पालक</b>	pālak	épinard	n.m.
2	<b>पास</b>	pās	près	adv.
5	<b>पिछला</b>	pichlā	précédent, dernier	adj.
9	<b>पिटना</b>	piṭnā	être battu	vb. int.
1	<b>पिता</b>	pitā	père	n.m.
17	<b>पिलवाना</b>	pilvānā	faire faire boire	vb. tr.
17	<b>पिलाना</b>	pilānā	faire boire	vb. tr.
6	<b>पिस्सू</b>	pissū	puce	n.m.
23	<b>पीक</b>	pīk	salive rouge (mêlée de bétel)	n.f.
23	<b>पीकदान</b>	pīkdān	crachoir	n.m.
2	<b>पीछे</b>	pīche	derrière	adv.

9	<b>पीटना</b>	pīṭnā	battre, frapper, punir, vaincre	vb. tr.
9	<b>पीठ</b>	pīṭh	dos, épine dorsale	n.f.
17	<b>पीड़ा</b>	pīrā	douleur, angoisse, souffrance	n.f.
16	<b>पीड़ित</b>	pīrīt	opprimé, affligé, victime	adj.
2	<b>पीना</b>	pīnā	boire	vb. tr.
7	<b>पीला</b>	pīlā	jaune, pâle	adj.
7	<b>पुदीना</b>	pudīnā	menthe	n.m.
3	<b>पुराना</b>	purānā	vieux, ancien	adj.
3	<b>पुरुष</b>	puruṣ	homme, mari	n.m.
19	<b>पुस्तक</b>	pustak	livre	n.f.
19	<b>पुस्तकालय</b>	pustakālaya	bibliothèque	n.m.
14	<b>पूँजी</b>	pūjī	capital, richesse, investissement	n.f.
14	<b>पूँजीवाद</b>	pūjīvād	capitalisme	n.m.
14	<b>पूँजीवादी</b>	pūjīvādī	capitaliste	adj., n.m.
13	<b>पूछना</b>	pūchnā	demander, enquêter, interroger	vb. int.
18	<b>पूरा</b>	pūrā	complet, total, entier	adj.
19	<b>पृथ्वी</b>	prithvī	terre, sol	n.f.
9	<b>पेट</b>	peṭ	ventre, estomac, utérus	n.m.
10	<b>पेशा</b>	peśā	profession, métier	n.m.
5	<b>पैंतालीस</b>	paintālis	quarante cinq	nombre 045
4	<b>पैंतीस</b>	paintīs	trente cinq	nombre 035
8	<b>पैंसठ</b>	painsath	soixante cinq	nombre 065
8	<b>पैदल</b>	paidal	piéton, à pied	adj.
8	<b>पैदल</b>	paidal	à pied	adv.
8	<b>पैदल</b>	paidal	piéton, fantassin	n.m.
9	<b>पैर</b>	pair	pied	n.m.
5	<b>पैसा</b>	paisā	argent, centimes de roupie	n.m.
Fam.	<b>पोता</b>	potā	petit-fils (fils du fils)	n.m.

Fam.	<b>पोती</b>	potī	petite-fille (fille du fils)	n.f.
22	<b>पोथी</b>	pothī	livre, livre sacré	n.f.
8	<b>पौना</b>	paunā	trois-quart (moins le quart)	adj.
23	<b>पौराणीक</b>	paurāṇīk	légendaire, mythologique	adj.
7	<b>प्याज़</b>	pyāz	oignon	n.f.
14	<b>प्यारा</b>	pyārā	aimé, cher, joli, agréable	adj.
14	<b>प्यारा</b>	pyārā	aimé, cher / mignon	n.m.
11	<b>प्यास</b>	pyās	soif	n.f.
11	<b>प्यास लगना (किसी को)</b>	pyās lagnā (kisī ko)	avoir soif	vb. int.
11	<b>प्यासा</b>	pyāsā	assoiffé	adj.
5	<b>प्रकार</b>	prakār	sorte, espèce, genre	
22	<b>प्रकृत</b>	prakrit	naturel	adj.
22	<b>प्रकृति</b>	prakṛiti	nature	n.f.
13	<b>प्रक्रिया</b>	prakriyā	processus	n.f.
19	<b>प्रगति</b>	pragati	progrès, développement	n.f.
13	<b>प्रचलित</b>	pracalit	en vogue, en usage	adj.
20	<b>प्रतिकूल</b>	pratikūl	contraire, opposé, adverse, défavorable	adj.
14	<b>प्रतिक्रिया</b>	pratikriyā	réaction	n.f.
14	<b>प्रतिक्षा</b>	pratiksā	attente	n.f.
19	<b>प्रतिक्षालय</b>	pratiksālaya	salle d'attente	n.m.
14	<b>प्रतिदान</b>	pratidān	récompense, remboursement	n.m.
22	<b>प्रतिदिन</b>	pratidin	quotidiennement	adv.
14	<b>प्रतिपक्ष</b>	pratipakṣa	opposition, camp opposé	n.m.
21	<b>प्रतिभा</b>	pratibhā	lumière, génie	n.f.
23	<b>प्रतियोगिता</b>	pratiyogitā	compétition, rivalité, tournoi	n.f.
23	<b>प्रतियोगी</b>	pratiyogī	concurrent, rival	n.m.
12	<b>प्रतिशत</b>	pratishat	pour cent	
14	<b>प्रतिहिंसा</b>	pratihimsā	vengeance	n.f.

14	<b>प्रतीक्षा करना (की)</b>	pratīkṣā karnā (ki)	attendre	vb. tr.
14	<b>प्रथा</b>	prathā	coutume, tradition, pratique	n.f.
12	<b>प्रदूषण</b>	praduṣaṇ	pollution	n.m.
20	<b>प्रबंध</b>	prabandha	arrangement, disposition, gestion	n.m.
20	<b>प्रबंध करना (का)</b>	prabandha karnā (kā)	arranger, organiser	vb. tr.
20	<b>प्रबंध होना</b>	prabandha honā	être prévu, arrangé, organisé	vb. int.
20	<b>प्रबंधक</b>	prabandhak	organisateur, manager	n.m.
20	<b>प्रबंधक</b>	prabandhak	organisateur, manager	adj.
20	<b>प्रभाव</b>	prabhāva	influence, impact, impression	n.m.
20	<b>प्रभाव डालना (किसी पर)</b>	prabhāv ḍālnā (kisī par)	influencer, impressionner X	vb. tr.
20	<b>प्रभाव में आना (किसी के)</b>	prabhāv mē ānā (kisī ke)	être influencé par, sous l'influence de	vb. int.
20	<b>प्रभावशाली</b>	prabhāvśālī	influent, impressionnant, efficace	adj.
20	<b>प्रभावहीन</b>	prabhāvhon	sans effet, sans influence	adj.
20	<b>प्रभावित (से)</b>	prabhāvit (se)	influencé (par)	adj.
13	<b>प्रमुख</b>	pramukh	principal, proéminent	adj.
12	<b>प्रयत्र</b>	prayatna	effort, tentative	n.m.
12	<b>प्रयास</b>	prayās	effort, tentative	n.m.
12	<b>प्रयास करना</b>	prayās karnā	essayer, s'efforcer	vb. tr.
12	<b>प्रयोग</b>	prayog	usage	n.m.
20	<b>प्रयोग करना</b>	prayog karnā	utiliser, faire usage	vb. tr.
22	<b>प्रशंसा</b>	praśansā	éloge	n.f.
13	<b>प्रसन्न</b>	prasanna	heureux, content	adv.
13	<b>प्रसन्नता</b>	prasannatā	joie, bonheur	n.f.
10	<b>प्रसिद्ध</b>	prasiddha	fameux, réputé, renommé	adj.
15	<b>फँसना</b>	fāsnā	être bloqué	vb. int.
16	<b>फटाफटाया</b>	phaṭā-phaṭāyā	déchiré, vieux	adj.
17	<b>फरमाना</b>	farmānā	parler, dire, exprimer	vb. tr.
14	<b>फरार</b>	farār	évadé, en fuite	adj./n.m.

3	<b>फर्श</b>	farš	plancher, sol	n.m.
12	<b>फल</b>	phal	fruit	n.m.
18	<b>फ़लाँ</b>	falā̄	un tel, un certain	adv.
16	<b>फसल</b>	fasal	récolte, moisson	n.f.
18	<b>फलाना</b>	falānā	un tel, un certain	adv.
9	<b>फाँदना</b>	phā̄dnā	sauter, bondir	vb. tr.
21	<b>फायदा</b>	fāydā	profit, gain, bénéfice, avantage, intérêt	n.m.
17	<b>फिक्र (फिकर)</b>	fiqra (fikar)	anxiété, souci, soin	n.f.
5	<b>फिर</b>	phir	puis, ensuite, à l'avenir	adv. tps
10	<b>फिरना</b>	phirnā	tourner, retourner, errer	vb. int.
13	<b>फ़िलहाल</b>	filhāl	pour l'instant, présentement	adv. tps
8	<b>फिसलना</b>	phisalnā	glisser, patiner	vb. int.
12	<b>फीसदी</b>	fīsadī	pour cent	
11	<b>फुर्सत</b>	fursat	loisir, répit, temps libre	n.f.
22	<b>फूटना</b>	phūṭanā	être brisé, se casser	vb. int.
Fam.	<b>पूफा</b>	phūphā	oncle (mari de la sœur du père)	n.m.
Fam.	<b>पूफी</b>	phūphī	tante (sœur du père)	n.f.
	<b>फूल</b>	phūl	fleur	n.m.
8	<b>फूल गोभी</b>	phūl-gobhī	chou-fleur	n.f.
9	<b>फेंकना</b>	pheñknā	jeter, lancer	vb. tr.
9	<b>फेफड़ा</b>	phephṛā	poumon	n.m.
19	<b>फैलाना</b>	phailānā	répandre, propager, rendre public	vb. tr.
16	<b>फैसला</b>	faislā	décision, jugement, accord, résolution	n.m.
23	<b>फौजदार</b>	faujadār	gendarme	n.m.
16	<b>फौरन</b>	fauran	immédiatement, tout de suite	adv.
1	<b>फ्रांसीसी</b>	frānsīsī	français, française	adj.
1	<b>फ्रांसीसी</b>	frānsīsī	le français (la langue)	n.f.
1	<b>फ्रांसीसी</b>	frānsīsī	un français (habitant de la France)	n.m.

17	<b>बंद</b>	band	fermé, clôturé, arrêté, discontinu	adj.
17	<b>बंद करना</b>	band karnā	cesser, interrompre, fermer	vb. tr.
17	<b>बंद हो जाना</b>	band ho jānā	être arrêté, être interrompu	vb. int.
6	<b>बंदर</b>	bandar	singe	n.m.
	<b>बंदरगाह</b>	bandargāh	port	n.m.
16	<b>बंटूक</b>	bandūk	fusil	n.f.
23	<b>बंदोबस्त</b>	bandobast	organisation, gestion	n.m.
19	<b>बंधु</b>	bandhu	frère, parent, ami	n.m.
3	<b>बकरा</b>	bakrā	bouc	n.m.
3	<b>बकरी</b>	bakrī	chèvre	n.f.
3	<b>बग़ीचा</b>	bagīcā	jardin, petit parc	n.m.
4	<b>बचना</b>	bacnā	échapper, être sauvé, être économisé	vb. int.
4	<b>बचपन</b>	bacpan	enfance	n.m.
17	<b>बचाना</b>	bacānā	sauver (qqun), économiser	vb. tr.
4	<b>बचाव</b>	bacāv	protection, défense, sécurité	n.m.
4	<b>बच्चा</b>	baccā	enfant (garçon)	n.m.
4	<b>बच्ची</b>	baccī	petite fille	n.f.
8	<b>बजना</b>	bajnā	sonner, résonner	vb. int.
8	<b>बजाना</b>	bajānā	faire sonner, jouer (d'un instrument)	vb. tr.
1	<b>बड़ा</b>	baṛā	grand, aîné	adj.
1	<b>बड़ा</b>	baṛā	beaucoup, très	adv.
10	<b>बढ़ई</b>	baṛhaī	menuisier	n.m.
4	<b>बढ़ना</b>	baṛhnā	augmenter, croître, progresser	vb. int.
4	<b>बढ़ाना</b>	baṛhānā	augmenter, faire croître	vb. tr.
4	<b>बढ़ाव</b>	baṛhāv	augmentation	n.m.
4	<b>बढ़ावा</b>	baṛhāvā	encouragement, incitation	n.m.
13	<b>बढ़िया</b>	baṛhiyā	excellent, parfait, de bonne qualité	adj.
13	<b>बढ़ोतरी</b>	baṛhottarī	augmentation	n.f.

17	<b>बतलाना</b>	batlānā	faire savoir, indiquer	vb. tr.
4	<b>बत्तीस</b>	battīs	trente deux	nombre 032
4	<b>बदकिस्मत</b>	badqismat	infortuné, malchanceux	adj.
4	<b>बदकिस्मती</b>	badqismatī	malchance	n.f.
4	<b>बदतमीज़</b>	badtamīz	impoli, insolent	adj.
4	<b>बदतमीज़ी</b>	badtamīzī	impolitesse, insolence	n.f.
9	<b>बदन</b>	badan	corps	n.m.
4	<b>बदनाम</b>	badnām	mal famé, de mauvaise réputation	adj.
4	<b>बदनामी</b>	badnāmī	mauvaise réputation	n.f.
7	<b>बदबू</b>	badbū	mauvaise odeur	n.f.
2	<b>बदमाश</b>	badmāś	méchant, mauvais, vilain	adj.
4	<b>बदमाशी</b>	badmāśī	méchanceté, malice	n.f.
7	<b>बदमिज़ाज</b>	badmizāj	qui a mauvais caractère	adj.
2	<b>बदसूरत</b>	badsūrat	laid	adj.
2	<b>बदसूरती</b>	badsūratī	laideur	n.f.
7	<b>बदहाल</b>	badhāl	en mauvais état	adj.
12	<b>बदाम</b>	badām	amande	n.m.
21	<b>बधाई</b>	badhāī	félicitation	n.f.
3	<b>बनना</b>	bananā	être fait, être préparé	vb. int.
17	<b>बनवाना</b>	banvānā	faire préparer, faire construire	vb. tr.
3	<b>बनाना</b>	banānā	faire, préparer, construire	vb. tr.
5	<b>बयालीस</b>	bayālīs	quarante deux	nombre 042
9	<b>बयासी</b>	bayāsī	quatre-vingt deux	nombre 082
13	<b>बरफ</b>	baraf	glace, neige	n.f.
18	<b>बरबाद</b>	barbād	détruit, ruiné	adj.
15	<b>बरस</b>	baras	an, année	n.m.
22	<b>बरसना</b>	barasanā	pleuvoir	vb. int.
22	<b>बरसाना</b>		faire pleuvoir	vb. int.

11	बर्फ़	barfa	glacé, froid	adj.
11	बर्फ़	barfa	glace, neige	n.f.
15	बल	bal	force, pouvoir, énergie, armée	n.m.
15	बलवान	balvān	puissant, fort, vigoureux	adj.
18	बल्ला	ballā	raquette	n.m.
18	बल्लेबाज़	ballebāz	joueur (de cricket, de tennis)	n.m.
13	बवंडर	bavandar	cyclone, typhon	n.m.
13	बसंत	basant	printemps	n.m.
9	बहत्तर	bahattar	soixante douze	nombre 072
2	बहन	bahan	sœur	n.f.
Fam.	बहनोई	bahanoī	beau-frère	n.m.
15	बहरा	baharā	sourd	adj., n.m.
4	बहस	bahas	discussion, débat	n.f.
23	बहाना	bahānā	prétexte, excuse	n.m.
13	बहार	bahār	printemps, épanouissement	n.f.
20	बहिष्कार	bahiṣkār	excommunication, boycott	n.m.
1	बहुत	bahut	beaucoup, très, plusieurs	adj., adv.
16	बहुमत	bahumat	majorité	n.m.
Fam.	बहू	bahū	belle-fille, bru	n.f.
23	बाँटना	bāṭanā	distribuer, partager	vb. tr.
17	बाँस	bās	bambou, pôle	n.m.
9	बाँह	bāha	bras, manche (vêtement)	n.f.
3	बाईस	bāīs	vingt-deux	nombre 022
15	बाकी	bāqī	qui reste, en reste	adj.
15	बाकी	bāqī	reste, restant, solde, reliquat	n.f.
6	बाघ	bāgh	tigre	n.m.
8	बाजरा	bājrā	millet, sorgho	n.m.
5	बाज़ार	bāzār	marché	n.m.

1	<b>बाद में</b>	bād mē	après, ensuite	adv. tps.
13	<b>बादल</b>	bādal	nuage	n.m.
17	<b>बादशाह</b>	bādśāha	roi, souverain, roi pièce d'échecs	n.m.
10	<b>बानवे</b>	bānave	quatre-vingt douze	nombre 092
	<b>बार</b>	bār	fois	n.f.
6	<b>बार बार</b>	bār bār	maintes-fois, à plusieurs reprises	adv.
13	<b>बारसात</b>	barsāt	pluie, saison des pluies, mousson	n.f.
2	<b>बारह</b>	bārah	douze	nombre 012
12	<b>बारात</b>	bārāt	cortège de mariage	n.f.
13	<b>बारिश</b>	bāriś	pluie, averse	n.f.
13	<b>बारिश का मौसम</b>	bāriś kā mausam	saison des pluies (mousson)	n.m.
9	<b>बाल</b>	bāl	cheveu	n.m.
16	<b>बालटी</b>	bāltī	seau	n.f.
7	<b>बावन</b>	bāvan	cinquante deux	nombre 052
2	<b>बावर्ची</b>	bāvarcī	cuisinier	n.m.
8	<b>बासठ</b>	bāsath	soixante deux	nombre 062
1	<b>बासी</b>	bāsī	rassis, pas frais	adj.
2	<b>बाहर</b>	bāhar	à l'extérieur, dehors	adv.
15	<b>बिगड़ना</b>	bigarnā	être détérioré	vb. int.
13	<b>बिजली</b>	bijalī	éclair, électricité	n.f.
21	<b>बिजलीकरण</b>	bijlīkaran	électrification	n.m.
2	<b>बिलकुल</b>	bilkul	complètement, tout à fait	adv.
6	<b>बिल्ली</b>	bilī	chat	n.f.
8	<b>बिस्तर</b>	bistar	lit	n.m.
6	<b>बीच</b>	bīc	centre, milieu	n.m.
6	<b>बीच बीच में</b>	bīc bīc mē	en plein centre	adv.
10	<b>बीमार</b>	bīmār	malade, souffrant, indisposé	adj.
10	<b>बीमार</b>	bīmār	malade	n.m.

15	<b>बीमारी</b>	bīmārī	maladie, souffrance	n.f.
2	<b>बीस</b>	bīs	vingt	nombre 020
5	<b>बीसवाँ</b>	20 bīsvā̄	vingtième	nombre ord.
Fam.	<b>बुआ</b>	buā	tante (sœur du père)	n.f.
11	<b>बुखार</b>	bukhār	fièvre, température	n.m.
11	बुखार होना (किसी को)	bukhār honā (kisī ko)	avoir de la fièvre	vb. int.
	<b>बुझना</b>	bujhanā	être éteint, s'éteindre	vb. int.
	<b>बुझाना</b>	bujhānā	éteindre	vb. tr.
14	<b>बुद्धि</b>	buddhi	intelligence, intellect	n.f.
22	<b>बुद्धिमत्ता</b>	buddhimattā	intelligence, sagesse	n.f.
14	<b>बुद्धिमान</b>	buddhimān	intelligent	adj.
14	<b>बुद्धिहीन</b>	buddhihīn	idiot, imbécile, stupide, sot	adj.
14	<b>बुद्धू</b>	buddhū	idiot, imbécile, stupide, sot	adj.
14	<b>बुद्धू</b>	buddhū	idiot, imbécile, stupide, sot	n.m.
5	<b>बुधवार</b>	(3) budhvār	mercredi (jour de Mercure)	n.m.
21	<b>बुनकर</b>	bunkar	tisserand	n.m.
1	<b>बुरा</b>	burā	mauvais, mal, méchant	adj.
2	<b>बुराई</b>	burā̄	méchanceté, le mal, le vice	n.f.
6	<b>बुलबुल</b>	bulbul	rossignol	n.m.
5	<b>बुलाना</b>	bulānā	appeler, faire venir, inviter	vb. tr.
7	<b>बू</b>	bū	odeur	n.f.
13	<b>बूंदाबूंदी</b>	bündābündī	bruine, crachin	n.f.
7	<b>बूटी</b>	būṭī	aromate, herbe, plante médicinale	n.f.
4	<b>बूढ़ा</b>	būṛhā	vieux	adj., n.m.
4	<b>बूढ़ापन</b>	būṛhāpan	vieillesse	n.m.
4	<b>बूढ़ापा</b>	būṛhāpā	vieillesse	n.m.
4	<b>बूढ़ी</b>	būṛhī	vieille	n.f.
5	<b>बृहस्पतिवार</b>	(4) brihaspativār	jeudi (jour de Jupiter)	n.m.

17	बेअंत	beanta	sans fin, interminable	adj.
14	बेअक्ल	beaqla	idiot, imbécile, stupide, sot	adj.
14	बेअक्ली	beaqlī	inintelligence, stupidité, idiotie	n.f.
17	बेर्इमान	beīmān	malhonnête	adj.
17	बेर्इमानी	beīmānī	malhonnêteté	n.f.
17	बेकसूर	beqasūr	innocent, non coupable	adj.
17	बेकार	bekār	sans travail, inutile, oisif	adj.
9	बेचारा	becārā	pauvre, sans appui	adj.
17	बेचैन	becain	agité, nerveux	adj.
2	बेटा	betā	fils	n.m.
2	बेटी	betī	fille (la fille de ...)	n.f.
3	बेठाना	bethānā	faire asseoir	vb. tr.
23	बेड़ी	berī	chaînes, menottes	n.f.
17	बेनाम	benām	anonyme	adj.
17	बेफिक्र	befikra	insouciant, indifférent	adj.
17	बेमतलब	bematlab	inutile, infructueux, hors de propos	adj.
12	बेर	ber	jujube	n.m.
16	बेलचा	belcā	pelle	n.m.
14	बेवकूफ	bevakūf	idiot, imbécile, stupide, sot	adj.
14	बेवकूफी	bevakūfī	inintelligence, stupidité, idiotie	n.f.
17	बेवजह	bevajaha	sans raison	adv.
17	बेसबर	besabar	impatient	adj.
17	बेहद	behad	illimité, excessif, beaucoup	adj.
7	बैंगन	baiṅgan	aubergine	n.m.
7	बैंगनी	baiṅgani	violet	adj.
3	बैटना	baiṭhnā	s'asseoir, être assis	vb. int.
3	बैठाना	baiṭhānā	faire asseoir	vb. tr.
19	बोरिया-बिस्तर	boriyā-bistar	effets personnels	n.m.

2	<b>बोली</b>	bolī	parole, dialecte, parler	n.f.
13	<b>बौछार</b>	bauchār	averse, rafale de pluie	n.f.
13	<b>बौछार पड़ना</b>	bauchār parñā	pleuvoir à torrents	vb. int.
12	<b>व्याह</b>	byāha	mariage, cérémonie de mariage	n.m.
19	<b>ब्राह्मण</b>	brāhmaṇa	brahmane (caste des lettrés)	n.m.
23	<b>भक्त</b>	bhakta	dévot	n.m.
6	<b>भगवान</b>	bhagvān	maître, Dieu, Seigneur	n.m.
8	<b>भगाना</b>	bhagānā	faire fuir	vb. tr.
Fam.	<b>भतीजा</b>	bhatijā	neveu (fils du frère)	n.m.
Fam.	<b>भतीजी</b>	bhatijī	nièce (fille du frère)	n.f.
15	<b>भरता</b>	bhartā	mets à base de pulpe de légumes	n.m.
15	<b>भरा</b>	bharā	plein, rempli	adj.
15	<b>भराव</b>	bharāv	remplissage, emplissage	n.m.
19	<b>भरोसा</b>	bharosā	confiance, foi	n.m.
2	<b>भला</b>	bhalā	gentil, bon, bien	adj.
2	<b>भलाई</b>	bhalāī	gentillesse, bonté	n.f.
18	<b>भवन</b>	bhavan	bâtimen, édifice	n.m.
12	<b>भविष्य</b>	bhaviṣya	avenir	adj./n.m.
23	<b>भाँजना</b>	bhājanā	brandir, briser	vb. tr.
2	<b>भाई</b>	bhāī	frère	n.m.
12	<b>भाग</b>	bhāg	part, portion, fraction	n.m.
14	<b>भाग लेना</b>	bhāg lenā	prendre part	vb. tr.
8	<b>भागना</b>	bhāgnā	courir, s'enfuir, s'échapper	vb. int.
	<b>भाग्य</b>	bhāgya	destin	n.m.
Fam.	<b>भानजा</b>	bhānjā	neveu (fils de la sœur)	n.m.
Fam.	<b>भानजी</b>	bhānjī	nièce (fille de la sœur)	n.f.
Fam.	<b>भाभी</b>	bhābhī	belle-sœur	n.f.
1	<b>भारत</b>	bhārat	Inde (terme sanscritisé)	n.m.

1	<b>भारतीय</b>	bhāratīy	indien	adj.
1	<b>भारतीय</b>	bhāratīy	indien (habitant l'Inde)	n.m.
9	<b>भारी</b>	bhārī	lourd, massif, pesant	adj.
6	<b>भालू</b>	bhālū	ours	n.m.
10	<b>भाव</b>	bhāva	existence, être, émotion, idée	n.m.
18	<b>भावना</b>	bhāvanā	conception, pensée, émotion, désir	n.f.
20	<b>भिगोना</b>	bhigonā	tremper, mouiller, imbiber	vb. tr.
1	<b>भी</b>	bhī	aussi	conj.
20	<b>भीगना</b>	bhīgnā	être mouillé, trempé, imbibé	vb. int.
16	<b>भीड़</b>	bhīṛ	foule	n.f.
9	<b>भुनना</b>	bhunnā	être grillé	vb. int.
2	<b>भुलक्कड़</b>	bhulakkar	oublieux, sans mémoire	adj.
8	<b>भुलाना</b>	bhulānā	faire oublier, induire en erreur	vb. tr.
19	<b>भू</b>	bhū	sol, terre, monde	n.f.
11	<b>भूख</b>	bhūkh	faim	n.f.
11	<b>भूख लगना (किसी को)</b>	bhūkh lagnā (kisī ko)	avoir faim	vb. int.
11	<b>भूखा</b>	bhūkhā	affamé	adj.
9	<b>भूनना</b>	bhūnnā	griller, frire, rôtir	vb. tr.
19	<b>भूमि</b>	bhūmi	la terre, le monde, sol, surface	n.f.
7	<b>भूरा</b>	bhūrā	marron	adj.
8	<b>भूल</b>	bhūl	oubli, omission, erreur, faute	n.f.
8	<b>भूलना</b>	bhūlnā	oublier, se tromper	vb. int.
23	<b>भेट</b>	bhent	cadeau	n.f.
14	<b>भेजना</b>	bhejnā	envoyer, expédier	vb. tr.
6	<b>भेड़</b>	bher	mouton	n.f.
6	<b>भेड़िया</b>	bheriyā	loup	n.m.
6	<b>भैस</b>	bhains	bufflesse (bufflonne)	n.f.
6	<b>भैसा</b>	bhainsā	buffle	n.m.

8	<b>भॉपू</b>	bhompū	avertisseur, klaxon, sirène	n.m.
16	<b>भोजन</b>	bhojan	nourriture, vivres, repas	n.m.
17	<b>भोला</b>	bholā	innocent, candide, ingénue	adj.
17	<b>भोलापन</b>	bholāpan	innocence, simplicité d'esprit	n.m.
9	<b>भौं</b>	bhaū	sourcil	n.f.
5	<b>मंगलवार</b>	(2) mägalvär	mardi (jour favorable, jour de Mars)	n.m.
14	<b>मंज़िल</b>	mañzil	étape, bivouac, camp, destination	n.f.
19	<b>मंज़ूर करना</b>	mañzür karnā	accepter, approuver	vb. tr.
19	<b>मंज़ूर होना (किसी को)</b>	mañzür honā (kisī ko)	accepter, approuver	vb. int.
19	<b>मंज़ूरी</b>	mañzūrī	acceptation, approbation	n.f.
14	<b>मंडप</b>	mañdap	abri, tente, dais, chapiteau	n.m.
15	<b>मंत्रालय</b>	mantrālaya	ministère	n.m.
15	<b>मंत्री</b>	mantrī	ministre, conseiller, secrétaire	n.m.
10	<b>मंदिर</b>	mandir	temple, maison	n.m.
6	<b>मकड़ी</b>	makṛī	araignée	n.f.
12	<b>मकान</b>	makān	maison, résidence, demeure	n.m.
8	<b>मक्का</b>	makkā	maïs	n.m.
9	<b>मक्खन</b>	makkhan	beurre	n.m.
6	<b>मक्खी</b>	makkhī	mouche	n.f.
23	<b>मगन</b>	magan	content	adj.
23	<b>मगन</b>	magan	absorbé, transporté	adj.
1	<b>मगर</b>	magar	mais	conj. coord.
6	<b>मगरमच्छ</b>	magarmaccha	crocodile	n.m.
19	<b>मचना</b>	macnā	avoir lieu	vb. int.
16	<b>मचलना</b>	macalnā	être capricieux	vb. int.
6	<b>मच्छर</b>	macchar	moustique	n.m.
3	<b>मच्छरदानी</b>	macchardānī	moustiquaire	n.f.
6	<b>मछली</b>	machī	poisson	n.f.

10	<b>ਮछਆ</b>	machuā	pêcheur	n.m.
10	<b>ਮ़जदूर</b>	mazdūr	ouvrier, travailleur	n.m.
16	<b>ਮजबूर</b>	majbūr	contraint, opprressé, faible	adj.
16	ਮजबूर करنا (किसी को)	majbūr karnā (kisī ko)	contraindre, forcer quelqu'un	expr. verb.
22	<b>ਮ़जहਬ</b>	mazahab	religion, croyance	n.m.
4	<b>ਮजਾ</b>	mazā	plaisir, goût, amusement	n.m.
9	ਮਜਾਕ ਤੱਡਾਨਾ (ਕਿਸੀ ਕਾ)	mazāq uṛānā (kisī ka)	se moquer de, ridiculiser	vb. tr.
9	<b>ਮਜਾਕ ਕਰਨਾ</b>	mazāq karnā	plaisanter	vb. tr.
9	<b>ਮਜਾਕ ਮੌ</b>	mazāq mē	en plaisantant, pour rire	loc.
4	<b>ਮਜ਼ੇਦਾਰ</b>	mazedār	agréable, plaisant, amusant	adj.
8	<b>ਮਟਰ</b>	maṭar	petits pois	n.f.
17	<b>ਮਤਲਬ</b>	matlab	signification, motif, intérêt	n.m.
14	<b>ਮਤਿ</b>	mati	intelligence, intellect	n.f.
18	<b>ਮਤਿ</b>	mati	intelligence, opinion, point de vue	n.f.
14	<b>ਮਤਿਮਾਨ</b>	matimān	intelligent	adj.
23	<b>ਮਦਦ</b>	madad	aide, assistance, renfort	n.f.
23	<b>ਮਨ</b>	man	esprit, cœur	n.m.
9	<b>ਮਨ ਪਸਂਦ</b>	man-pasand	favori, plaisant	adj.
6	<b>ਮਨਹੂਸ</b>	manhūs	de mauvais augure, malchanceux	adj.
4	<b>ਮਨਾਨਾ</b>	manānā	persuader, convaincre	vb. tr.
14	<b>ਮਨੁ਷ਾ</b>	manuṣya	homme, être humain	n.m.
Fam.	<b>ਮਮੇਰੀ ਬਹਨ</b>	mamerī bahan	cousine (fille du frère de la mère)	n.f.
18	<b>ਮਰਣਾਸਨਨ</b>	maraṇāsanna	mourant	adj.
17	<b>ਮਰਮਮਤ</b>	marammat	réfection, réparation	n.f.
3	<b>ਮਦ (ਮਰਦ)</b>	mard (marad)	homme, mari	n.m.
21	<b>ਮਲ</b>	mal	saleté, souillure, ordure, excrément	n.m.
10	<b>ਮਸ਼ਹੂਰ</b>	mašhūr	renommé, réputé, connu	adj.
12	<b>ਮਸਕਰਾਨਾ</b>	maskarānā	sourire	vb. int.

4	<b>मसाला</b>	masālā	épice, mélange d'épices	n.m.
4	<b>मसालेदार</b>	masāledār	épicé	adj.
23	<b>मस्जिद</b>	masjid	mosquée	n.f.
9	<b>मस्तिष्क</b>	mastiṣk	cerveau	n.m.
13	<b>महङ्गा</b>	mahāṅgā	cher, coûteux	adj.
14	<b>महत्व</b>	mahattva	importance, grandeur	n.m.
14	<b>महत्वपूर्ण</b>	mahattvapūrṇa	important	adj.
6	<b>महल</b>	mahal	palais	n.m.
11	<b>महसूस</b>	mahasūs	ressenti, éprouvé	adj.
11	महसूस होना (किसी को)	mahasūs honā (kisī ko)	ressentir, éprouver	vb. tr.
10	<b>महाजन</b>	mahājan	usurier	n.m.
10	<b>महान</b>	mahān	très grand, énorme, éminent	adj.
3	<b>महिला</b>	mahilā	femme, dame	n.f.
5	<b>महीना</b>	mahīnā	mois	n.m.
4	<b>महौल</b>	māhaul	ambiance	n.m.
2	<b>माँ</b>	mā̃	mère (familier)	n.f.
23	<b>माँगना</b>	mā̃ganā	demander, réclamer	vb. tr.
11	<b>मांस</b>	mā̃s	viande	n.m.
11	<b>मांसाहारी</b>	mā̃sāhārī	non-végétarien	adj., n.m.
2	<b>माता</b>	mātā	mère	n.f.
9	<b>माथा</b>	māthā	front	n.m.
4	<b>मानना</b>	mānnā	approuver, consentir	vb. int.
13	<b>मानसून</b>	mānsūn	mousson	n.m.
14	<b>माप</b>	māp	mesure, quantité, volume	n.f.
8	<b>माफ़ करना</b>	māf karnā	pardonner, excuser	vb. tr.
Fam.	<b>मामा</b>	māmā	oncle (frère de la mère)	n.m.
Fam.	<b>मामी</b>	māmī	tante (épouse du frère de la mère)	n.f.
22	<b>मामूलियत</b>	māmūliyat	banalité	n.f.

22	<b>मामूली</b>	māmūlī	commun, ordinaire	adj.
23	<b>माया</b>	māyā	illusion	n.f.
9	<b>मार पीट</b>	mār-pīṭ	passage à tabac	n.f.
21	<b>माल</b>	māl	marchandise, richesse	n.m.
19	<b>मालिक</b>	mālik	maître, propriétaire	n.m.
3	<b>मालिन</b>	mālin	jardinière	n.f.
3	<b>माली</b>	mālī	jardinier	n.m.
8	<b>मालूम</b>	mālūm	connu, évident	adj.
8	<b>मालूम होना (किसी को)</b>	mālūm honā (kisī ko)	être connu, savoir	vb. int.
7	<b>मिजाज</b>	mizāj	nature, tempérament, caractère	n.m.
16	<b>मिट्टी</b>	mittī	terre, poussière, dépouille mortelle	n.f.
8	<b>मिनट</b>	minaṭ	minute	n.m.
15	<b>मिनिस्टर</b>	ministar	ministre	n.m.
15	<b>मियाँ</b>	miyāñ	maître, mari, titre de respect musulman	n.m.
7	<b>मिर्च</b>	mirc	piment	n.f.
16	<b>मिलन</b>	milan	rencontre, réunion, réconciliation	n.m.
3	<b>मिलना (किसी से)</b>	milnā (kisī se)	rencontrer (quelqu'un)	vb. int.
16	<b>मिलना (किसी को X)</b>	milnā (kisī ko x)	trouver x	vb. int.
16	<b>मिलवाना</b>	milvānā	faire rencontrer, présenter	vb. tr.
16	<b>मिलवाना (X को Y से)</b>	milvānā (X ko Y se)	présenter, faire rencontrer Y à X	expr. verb.
3	<b>मिलाना</b>	milānā	mélanger, faire rencontrer	vb. tr.
16	<b>मिलाप</b>	milāp	rencontre, réunion, union	n.m.
16	<b>मिलावट</b>	milāvat	mélange, adultération, alliage	n.f.
2	<b>मीठा</b>	mīṭhā	sucré, doux	adj.
23	<b>मुकाबला</b>	muqābalā	compétition, comparaison	n.m.
9	<b>मुँह</b>	mūha	bouche, visage, ouverture, figure	n.m.
16	<b>मुँह में पानी आना</b>	mūha mē pānī ānā	saliver, avoir l'eau à la bouche	expr. verb.
16	<b>मुँह में लार आना</b>	mūha mē lār ānā	saliver, avoir l'eau à la bouche	expr. verb.

20	मुखालिफ़	mukhālif	contraire, opposé, hostile	adj.
20	मुखालिफ़	mukhālif	ennemi, opposant	n.m.
20	मुखालिफत	mukhālifat	opposition, antagonisme	n.f.
22	मुट्ठी	mutṭhī	poing, poignée	n.f.
4	मुडना	murñā	se plier, se tordre, se tourner	vb. int.
21	मुनाफ़ा	munāfā	profit, gain, bénéfice	n.m.
22	मुनासिब	munāsib	approprié	adj.
21	मुबारक	mubārak	de bon augure	adj.
18	मुमकिन	mumkin	possible, faisable	adj.
6	मुरग़ा	murgā	coq, poulet	n.m.
16	मुलाकात	mulāqāt	rencontre, entrevue	n.f.
6	मुल्क	mulka	pays, état, région	n.m.
11	मुश्किल	muśkil	difficile, ardu, dur	adj.
11	मुश्किल	muśkil	difficulté, complexité, peine	n.f.
12	मुस्कान	muskān	sourire	n.f.
12	मुस्कुराना	muskurānā	sourire	vb. int.
6	मुसाफिर	musāfir	voyageur	n.m.
7	मुस्कुराहट	muskurāhaṭ	sourire	n.f.
9	मूँछ	mūñch	moustache	n.f.
9	मूँगफली	mūñghphalī	cacahuète	n.f.
11	मूर्ख	mūrkha	ignorant, bête, imbécile...	adj.
14	मूर्ख	mūrkha	idiot, imbécile, stupide, sot	adj.
14	मूर्ख	mūrkha	idiot, imbécile, stupide, sot	n.m.
14	मूर्खता	mūrkhtā	inintelligence, stupidité, idiotie	n.f.
8	मूली	mūlī	radis	n.m.
18	मूल्य	mūlyā	prix, valeur, coût	n.m.
6	मृग	mrīga	daim, gazelle	n.m.
10	मृत्यु	mrityu	mort	n.f.

2	<b>मैं</b>	mě	dans, à l'intérieur de	post pos.
6	<b>मेंढक</b>	menḍhak	crapaud (grenouille ?)	n.m.
3	<b>मेज़</b>	mez	table	n.f.
16	<b>मेज़पोश</b>	mezpoś	nappe	n.m.
7	<b>मेथी</b>	methī	graine de fenugrec	n.f.
1	<b>मेरा</b>	merā	mon	adj. pos
1	<b>मेरा</b>	merā	le mien	pron. pos
15	<b>मेहमान</b>	mehamān	invité	n.m.
8	<b>मेहरबानी करके</b>	meharbānī karke	s'il vous plaît, je vous prie de	adv.
1	<b>मैं</b>	maĩ	je (toujours singulier)	pron. pers.
6	<b>मैना</b>	mainā	mainate	n.f.
10	<b>मोची</b>	mocī	cordonnier	n.m.
7	<b>मोटा</b>	motā	gros, épais	adj.
6	<b>मोड़</b>	mor	courbe, tournant, virage	n.m.
4	<b>मोड़ना</b>	morñā	tourner, courber, plier	vb. tr.
3	<b>मोढ़ा</b>	morhā	tabouret	n.m.
6	<b>मोर</b>	mor	paon	n.m.
15	<b>मोहरा</b>	moharā	pion (échecs), 1ère ligne (armée), goulot	n.m.
11	<b>मौका</b>	mauqā	occasion, chance, opportunité	n.m.
11	<b>मौके पर</b>	mauqe par	au bon moment	adv. tps
22	<b>मौजूद</b>	maujūd	présent	adj.
10	<b>मौत</b>	maut	mort	n.f.
12	<b>मौसम</b>	mausam	saison, temps (météo)	n.m.
13	<b>मौसम पूर्वानुमान</b>	mausam pūrvānumān	prévision météorologique	n.m.
13	<b>मौसम वार्ता</b>	mausam vārtā	bulletin météo	n.m.
13	<b>मौसम विज्ञान</b>	mausam-vijñān	météorologie	n.m.
Fam.	<b>मौसा</b>	mausā	oncle (mari de la sœur de la mère)	n.m.
Fam.	<b>मौसी</b>	mausī	tante (sœur de la mère)	n.f.

19	<b>यकीन</b>	yaqīn	confiance, foi	n.m.
2	<b>यह</b>	yaha (ye)	celui-ci, celle-ci	pron. dem.
2	<b>यहाँ</b>	yahā̄	ici	adv. lieu
6	<b>यहाँ तक</b>	yahā̄ tak	jusqu'ici	loc. adv
6	<b>यहाँ से</b>	yahā̄ se	depuis ici, d'ici	loc. adv
6	<b>या</b>	yā	ou, ou bien	conj. coord.
6	<b>यात्रा</b>	yātrā	voyage, pèlerinage	n.f.
11	<b>याद</b>	yād	souvenir, mémoire	n.f.
11	<b>याद करना</b>	yād karnā	se souvenir (volontairement)	vb. int.
11	<b>याद रखना</b>	yād rakhnā	se souvenir (volontairement)	vb. int.
14	<b>याद रहना</b>	yād rahnā	se souvenir, garder en mémoire	vb. int.
14	<b>याद होना (को)</b>	yād honā	se souvenir	vb. int.
12	<b>युवक</b>	yuvak	jeune homme	n.m.
12	<b>युवता</b>	yuvatā	jeunesse	n.f.
12	<b>युवती</b>	yuvatī	jeune (uniquement féminin)	adj.
12	<b>युवा</b>	yuvā	jeune (uniquement masculin)	adj.
12	<b>युवापन</b>	yuvāpan	jeunesse	n.m.
12	<b>युवावस्था</b>	yuvāvasthā	jeunesse	n.f.
18	<b>योग्य</b>	yogya	digne, compétent, qualifié, capable	adj.
18	<b>योग्यता</b>	yogyatā	compétence, capacité, habileté	n.f.
14	<b>योजना</b>	yojnā	projet, plan	n.f.
10	<b>रंगरेज</b>	raṅgarez	teinturier	n.m.
10	<b>रंगसाज़</b>	raṅgasāz	peintre, fabriquant de couleurs	n.m.
23	<b>रंज</b>	rañj	tourment, chagrin, souffrance	n.m.
13	<b>रईस</b>	raīs	riche, noble, opulent	adj.
13	<b>रईस</b>	raīs	homme riche, noble	n.m.
23	<b>रक़म</b>	raqam	somme d'argent	n.f.
5	<b>रखना</b>	rakhnā	mettre, garder, conserver, posséder	vb. tr.

19	रगड़ना	ragarnā	frotter, frictionner, étriller, piler, harceler	vb. tr.
18	रणनीति	raṇanīti	stratégie	n.f.
5	रविवार	(7) ravivār	dimanche (jour du Soleil)	n.m.
22	रवैया	ravaiyā	attitude, comportement	n.m.
20	रसोई	rasoī	cuisine	n.f.
3	रसोईघर	rasoīghar	cuisine	n.m.
14	रस्म	rasma	cérémonie, coutume, usage	n.f.
4	रहना	rahanā	demeurer, habiter, vivre, rester	vb. int.
17	राख	rākh	cendre	n.f.
10	राग	rāg	couleur, teinture, mode musical	n.m.
14	राज	rāj	royaume, empire, état, régime	n.m.
14	राजकीय	rājkīya	gouvernemental, officiel, étatique	adj.
10	राजगीर	rājgīr	mâçon	n.m.
14	राजतंत्र	rājtantra	monarchie	n.m.
14	राजदूत	rājdūt	ambassadeur	n.m.
14	राजदूतावास	rājdūtāvās	ambassade	n.m.
14	राजधानी	rājdhānī	capitale	n.f.
14	राजनीति	rājnīti	politique	n.f.
18	राजनैतिक	rājnaitik	politique	adj.
14	राजव्यवस्था	rājvyavasthā	régime, forme de gouvernement	n.f.
6	राजा	rājā	roi, monarque, maître	n.m.
14	राज्य	rājya	royaume, état, régime	n.m.
14	राज्यसभा	rājyasabhā	chambre haute du parlement	n.f.
3	रात	rāt	nuit	n.f.
5	रात्री	rātri	nuit	n.f.
3	रानी	rānī	reine	n.f.
23	राय	rāya	conseil, opinion, avis	n.f.
14	राष्ट्र	rāṣṭra	état, pays, nation, peuple	n.m.

14	<b>रिवाज</b>	rivāj	coutume, tradition, pratique	n.m.
14	<b>रीति</b>	rīti	coutume, tradition, pratique	n.f.
17	<b>रुक जाना</b>	ruk jānā	s'arrêter	vb. int.
4	<b>रुकना</b>	rukñā	s'arrêter, s'interrompre, rester	vb. int.
7	<b>रुकावट</b>	rukāvaṭ	obstacle, empêchement	n.f.
11	<b>रुचि</b>	ruči	intérêt	n.f.
17	<b>रुलवाना</b>	rulvānā	faire faire pleurer quelqu'un	vb. tr.
17	<b>रुलाना</b>	rulānā	faire pleurer quelqu'un	vb. tr.
22	<b>रुढ़िवादी</b>	rūḍhivādī	rétrograde	adj.
1	<b>रूसी</b>	rūsī	russe	adj.
1	<b>रूसी</b>	rūsī	le russe (la langue)	n.f.
1	<b>रूसी</b>	rūsī	un russe (habitant la Russie)	n.m.
22	<b>रेकना</b>	renkanā	braire	vb. int.
2	<b>रेशमी</b>	reśmī	en soie, de soie	adj.
17	<b>रोक देना</b>	rok denā	arrêter, empêcher d'avancer, interdire	vb. tr.
4	<b>रोकना</b>	rokñā	arrêter, empêcher d'avancer, interdire	vb. tr.
15	<b>रोग</b>	rog	maladie, mal	n.m.
15	<b>रोगी</b>	rogī	malade, souffrant	adj.
22	<b>रोजाना</b>	rozānā	quotidiennement	adv.
15	<b>रोगी</b>	rogī	malade, patient	n.m.
12	<b>रोना</b>	ronā	pleurer, se lamenter	vb. int.
19	<b>रोम</b>	rom	poil, duvet, orifice	n.m.
19	<b>रोम रोम से</b>	rom rom se	de tout son être	adv.
19	<b>रोमकारी</b>	romkārī	saisissant, terrifiant	adj.
19	<b>रोयाँ (रोआँ)</b>	royā (roā)	poil	n.m.
19	<b>रोयाँ खड़ा होना</b>	royā kharā honā	avoir la chair de poule	vb. int.
19	<b>रोयेंदार</b>	royendār	poilu, velu, hirsute	adj.
9	<b>लंबा</b>	lambā	long, étendu, haut, grand	adj.

7	<b>लकड़ी</b>	lakṛī	bois, bâton	n.f.
13	<b>लक्ष्य</b>	lakṣya	objectif	n.m.
5	<b>लगना</b>	lagnā	être appliqué, posé, sembler	vb. int.
5	<b>लगाना</b>	lagānā	accrocher, appliquer, installer	vb. tr.
6	<b>लटकना</b>	laṭaknā	être pendu, suspendu	vb. int.
6	<b>लटकाना</b>	laṭkānā	pendre, suspendre, retarder	vb. tr.
2	<b>लड़का</b>	larkā	garçon	n.m.
2	<b>लड़की</b>	larkī	fille, jeune fille	n.f.
15	<b>लड़ना</b>	laṛnā	combattre, lutter, s'entrechoquer	vb. int.
15	<b>लड़ाई</b>	laṛāī	combat, dispute	n.f.
15	<b>लड़ाका</b>	laṛākā	querelleur, belliqueux	adj.
15	<b>लड़ाना</b>	laṛānā	faire battre, combattre, confronter	vb. tr.
8	<b>लपकना</b>	lapaknā	se précipiter, s'élançer	vb. int.
7	<b>लहसुन</b>	lahasun	ail	n.m.
10	<b>लाख</b>	lākh	cent mille	nombre 100000
14	<b>लागू करना</b>	lāgū	mettre en application	vb. tr.
23	<b>लाज</b>	lāj	pudeur, modestie, timidité	n.f.
1	<b>लाना</b>	lānā	apporter, amener	vb. tr.
21	<b>लाभ</b>	lābh	profit, gain, bénéfice, avantage	n.m.
18	<b>लायक</b>	lāyaq	convenable, digne de, capable	adj.
16	<b>लार</b>	lār	salive, bave	n.f.
7	<b>लाल</b>	lāl	rouge	adj.
15	<b>लालच</b>	lālac	avidité, convoitise	n.m.
6	<b>लिखना</b>	likhnā	écrire, rédiger, inscrire	vb. tr.
6	<b>लिखावट</b>	likhāvat	écriture, façon d'écrire	n.f.
19	<b>लिखित</b>	likhit	écrit	adj.
11	<b>लिपि</b>	lipi	écriture, système d'écriture	n.f.
22	<b>लुटना</b>	lutnā	être pillé	vb. int.

22	लुटाना	lutānā	dilapider, gaspiller	vb. tr.
22	लूट	lūt	vol, larcin, pillage	n.f.
22	लूटना	lūtanā	voler, piller	vb. tr.
22	लूटाना	lutānā	dilapider, gaspiller	vb. tr.
22	लूटेरा	lūterā	voleur	n.m.
1	लेकिन	lekin	mais, d'autre part	conj. coord.
10	लेखक	lekhak	auteur, écrivain	n.m.
2	लेना	lenā (irrégulier)	prendre	vb. tr.
22	लोक	lok	monde, endroit, lieu	n.m.
13	लोकतंत्र	loktantra	démocratie	n.m.
6	लोक संगीत	lok saṅgīt	musique folklorique	n.m.
3	लोग	log	gens, peuple	n.m.
19	लोटना	lotnā	se rouler, se vautrer, se tordre	vb. int.
15	लोभ	lobh	convoitise, avidité, avarice	n.m.
6	लोमङ्गी	lomṛī	renard	n.f.
10	लोहार	lohār	forgeron	n.m.
7	लौंग	lauṅg	clou de girofle, giroflier	n.m.
22	लौकिक	laukik	mondain, terrestre	adj.
8	लौटना	lautnā	rentrer, retourner, revenir	vb. int.
8	लौटाना	lauṭānā	envoyer, retourner, rendre	vb. tr.
14	वकील	vakīl	avocat, émissaire	n.m.
5	वक़्त	vaqta	temps, moment, heure, occasion	n.m.
6	वग़ैरह	vagairah	et cetera	adv.
9	वज़न	vazan	poids, valeur, importance	n.m.
9	वज़नदार	vazandār	lourd	adj.
17	वजह	vajaha	raison, cause	n.f.
22	वतन	vatan	patrie, pays	n.m.
12	वधू	vadhū	fiancée, mariée, épouse	n.f.

12	वन	van	forêt	n.m.
12	वर	var	jeune marié, don du ciel	n.m.
19	वर्ण	varṇa	couleur, teinture, caste, lettre (alphab.)	n.m.
16	वर्ष	varṣa	an, année	n.m.
13	वर्षा	varṣā	pluie, mousson	n.f.
16	वस्तु	vastu	chose, objet, article	n.f.
1	वह	vo	il, elle (singulier)	pron. pers.
2	वहाँ	vahā	là	adv. Lieu
18	वांछा	vāchā	désir, souhait	n.f.
5	वाक़ई	vāqai	vraiment	adv.
18	वाद	vād	énonciation, débat, rumeur, procès	n.m.
10	वापस	vāpas	de retour, rentré, renvoyé	adj.
10	वापस आना	vāpas ānā	rentrer, être de retour	vb. int.
16	वार्षिक	vāṛṣik	annuel	adj.
13	विकलांग	vikalāṅg	estropié, infirme	adj.
21	विकसित	viksit	développé	adj.
21	विकास	vikās	développement, croissance, évolution, progrès	n.m.
21	विकास करना	vikās karnā	développer	vb. tr.
10	विक्रेता	vikretā	vendeur	n.m.
21	विचार	vicār	pensée, réflexion, avis, opinion	n.m.
21	विचार करना	vicār karnā	penser	vb. tr.
21	विचारक	vicārak	penseur	n.m.
21	विचार-धारा	vicār-dhārā	courant de pensée, tendance, idéologie	n.f.
21	विचारना	vicārnā	penser, réfléchir, délibérer	vb. tr.
21	विचारी	vicāri	penseur	n.m.
13	विज्ञान	vijñān	science	n.m.
20	विज्ञानिक	vijñānik	scientifique	adj.
6	विदेश	videś	étranger (pays)	n.m.

6	<b>विदेशी</b>	videśī	de l'étranger	adj.
6	<b>विदेशी</b>	videśī	étranger	n.m.
19	<b>विद्या</b>	vidyā	connaissance	n.f.
1	<b>विद्यार्थनी</b>	vidyārthanī	étudiante, élève	n.f.
1	<b>विद्यार्थी</b>	vidyārthī	étudiant, élève	n.m.
11	<b>विद्वान्</b>	vidvān	savant, érudit	n.m.
12	<b>विधवा</b>	vidhavā	veuve	n.f.
16	<b>विधि</b>	vidhi	méthode, manière, système, loi	n.f.
12	<b>विधुर</b>	vidhur	veuf	n.m.
21	<b>विनाश</b>	vināś	destruction, anéantissement, désastre	n.m.
20	<b>विपक्षी</b>	vipakṣī	opposant, adversaire, ennemi	n.m.
20	<b>विपक्षी</b>	vipakṣī	opposé, hostile	adj.
20	<b>विपरीत</b>	viparīt	contraire, opposé, mensonger, faux	adj.
23	<b>विफल</b>	viphal	vain, infructueux	adj.
23	<b>विफलता</b>	viphaltā	échec	n.f.
13	<b>विभाग</b>	vibhāg	département dans une administration	n.m.
15	<b>वियुक्त</b>	viyukta	séparé, isolé	adj.
20	<b>विरुद्ध</b>	viruddha	contraire, opposé, hostile	adj.
20	<b>विरोध</b>	virodh	opposition, antagonisme	n.m.
20	<b>विरोधी</b>	virodhī	opposant, adversaire, antagoniste	n.m.
14	<b>विलायत</b>	vilāyat	pays, étranger (occident, G.B.)	n.f.
12	<b>विवाह</b>	vivāh	mariage	n.m.
12	<b>विवाहित</b>	vivāhit	marié	adj.
2	<b>विशेष</b>	viśeṣ	particulier, spécifique, caractéristique	adj.
22	<b>विशेषज्ञ</b>	viśeṣagya	expert	n.m.
2	<b>विशेषता</b>	viśeṣṭā	particularité, spécificité	n.f.
13	<b>विश्व</b>	viśva	monde, univers	n.m.
19	<b>विश्वविद्यालय</b>	viśvavidyālaya	université	n.m.

19	<b>विश्वस्त</b>	viśvasta	digne de confiance, fiable	adj.
19	<b>विश्वास</b>	viśvās	confiance, foi, assurance, croyance	n.m.
19	<b>विश्वास करना</b>	viśvās karnā	croire	vb. tr.
19	विश्वास दिलाना (किसी को)	viśvās dilānā (kisī ko)	rassurer	vb. tr.
19	विश्वास रखना (x पर)	viśvās rakhnā (X par)	faire confiance à X, croire en X	vb. tr.
19	विश्वास होना (किसी को X पर)	viśvās honā (kisī ko X par)	avoir confiance, la foi en X	vb. int.
19	<b>विश्वासघात</b>	viśvāsghāt	trahison, abus de confiance	n.m.
19	<b>विश्वासघात करना</b>	viśvāsghāt karnā	trahir	vb. tr.
13	<b>विस्तार</b>	vistār	expansion	n.m.
12	<b>वीही</b>	vīhī	coing	n.f.
13	<b>वृद्धि</b>	n.f.	croissance	n.f.
1	<b>वे</b>	ve	ils, elles (pluriel)	pron. pers.
20	<b>वैज्ञानिक</b>	vaijñānik	savant	n.m.
20	<b>वैज्ञानिक</b>	vaijñānik	scientifique	adj.
23	<b>वैराग्य</b>	vairāgya	renonciation	n.m.
19	<b>वैश्य</b>	vaiśya	caste des commerçants	n.m.
14	<b>व्यक्ति</b>	vyakti	homme, individu, personne, sujet	n.m.
22	<b>व्यक्तिवादी</b>	vyaktivādī	individualiste	adj.
10	<b>व्यवसाय</b>	vyavasāya	profession, vocation, occupation	n.m.
20	<b>व्यवस्था</b>	vyavasthā	arrangement, organisation, système	n.f.
20	<b>व्यवस्था करना (की)</b>	vyavasthā karnā (kī)	arranger, organiser	vb. tr.
20	<b>व्यवस्था होना</b>	vyavasthā honā	être prévu, arrangé, organisé	vb. int.
16	<b>व्यस्त</b>	vyast	occupé	adj.
12	<b>व्यापार</b>	vyāpār	commerce	n.m.
10	<b>व्यापारी</b>	vyāpārī	commerçant	n.m.
11	<b>शक</b>	śak	doute, soupçon	n.m.
11	शक होना (किसी को)	śak honā (kisī ko)	avoir un doute	vb. int.
14	<b>शकल</b>	śakal	visage, traits, mine, aspect	n.f.

15	<b>शक्कर</b>	śakkar	sucré	n.f.
8	<b>शक्कर कंद</b>	śakkar kanda	patate douce	n.m.
13	<b>शक्तिशाली</b>	śaktisālī	puissant	adj.
14	<b>शत-प्रतिशत</b>	śat-pratiśat	cent pour cent	loc. adv.
15	<b>शतरंज</b>	śatrañja	jeu d'échecs	n.f.
5	<b>शनिवार</b>	(6) śanivār	samedi (jour de Saturne)	n.m.
13	<b>शब्द</b>	śabda	mot, terme, son, parole	n.m.
15	<b>शरमाना</b>	śarmānā	éprouver de la honte, être intimidé	vb. int.
15	<b>शरमिन्दा</b>	śarmindā	honteux, confus	adj.
15	<b>शरमिला</b>	śarmilā	timide, pudique	adj.
5	<b>शराब</b>	śarāb	vin, alcool	n.m.
6	<b>शराबी</b>	śarābī	ivrogne	adj., n.m.
16	<b>शरिपफ़</b>	śarif	courtois, bien élevé, aimable, bien	adj.
9	<b>शरीर</b>	śarīr	corps	n.m.
15	<b>शर्म</b>	śarm	honte, pudeur, timidité	n.m.
15	<b>शर्म आना (किसी को)</b>	śarm ānā (kisi ko)	éprouver de la honte, être intimidé	vb. int.
15	<b>शर्म होना (किसी को)</b>	śarm honā (kisi ko)	éprouver de la honte, être intimidé	vb. int.
8	<b>शलगम</b>	śalgam	navet	n.m.
14	<b>शव</b>	śav	cadavre	n.m.
5	<b>शहर</b>	śahar	ville	n.f.
19	<b>शांत</b>	śānta	paisible, silencieux, calme	adj.
19	<b>शांति</b>	śānti	paix, calme, silence	n.f.
19	<b>शांतिवाद</b>	śāntivād	pacifisme	n.m.
11	<b>शाकाहारी</b>	śākāhārī	végétarien	adj., n.m.
12	<b>शादी</b>	śādi	mariage	n.f.
12	<b>शादीशुदा</b>	śādīśudā	marié (inv.)	adj.
4	<b>शाम</b>	śām	soir, soirée	n.f.
14	<b>शामिल</b>	śāmil	joint, inclus, impliqué	adj.

2	<b>शायद</b>	śāyad	peut-être, probablement	adv.
14	<b>शायर</b>	śāyar	poète	n.m.
14	<b>शायरी</b>	śāyarī	poésie, composition poétique	n.f.
19	<b>शास्त्र</b>	śāstra	écritures religieuses, traités	n.m.
16	<b>शिकायत</b>	śikāyat	plainte, reproche, malaise	n.f.
16	शिकायत करना (X से Y की)	śikāyat karnā (X se Y kī)	se plaindre de Y auprès de X	expr. verb.
6	<b>शिकार</b>	śikār	chasse, gibier, proie	n.m.
6	<b>शिकार खेलना</b>	śikār khelna	chasser	vb. tr.
6	<b>शिकारी</b>	śikārī	chasseur	n.m.
20	<b>शिक्षक</b>	śikṣak	éducateur, enseignant	n.m.
14	<b>शिक्षा</b>	śikṣā	enseignement, éducation	n.f.
16	<b>शीघ्र</b>	śīghra	immédiatement, rapidement,vite	adv.
5	<b>शुक्रवार</b>	(5) śukravār	vendredi (jour de Vénus)	n.m.
16	<b>शुरू</b>	śurū	début, commencement	n.m.
16	<b>शुरू करना</b>	śurū karnā	commencer, initier	vb. tr.
16	<b>शुरू होना</b>	śurū honā	être commencé, commencer	vb. int.
19	<b>शूद्र</b>	śūdra	caste la plus basse	n.m.
10	<b>शून्य</b>	śūnya	zéro	nombre 000
3	<b>शेर</b>	śer	vers (de poésie)	n.m.
6	<b>शेर</b>	śer	lion	n.m.
4	<b>शैतानी</b>	śaitānī	méchanceté, espièglerie	n.f.
17	<b>शोध</b>	śodh	purification, raffinage, correction	n.m.
19	<b>शोर</b>	śor	bruit, tumulte, tapage	n.m.
11	<b>शौक</b>	śauk	passion, goût	n.m.
11	शौक होना (किसी को...का)	śauk honā (kisī ko... ka)	avoir la passion de ...	vb. tr.
3	<b>श्री</b>	śrī	monsieur	n.m.
3	<b>श्री</b>	śrī	nom de Lakshmi	n.f.
14	<b>संकरा</b>	saṅkrā	étroit, serré	adj.

16	<b>संकल्प</b>	saṅkalpa	détermination, résolution	n.m.
21	<b>संकोच</b>	saṅkoc	hésitation, timidité, réserve	n.m.
9	<b>संगीत</b>	saṅgīt	musique	n.m.
10	<b>संगीतकार</b>	saṅgītakār	musicien	n.m.
21	<b>संग्राम</b>	saṅgrām	guerre, bataille	n.m.
12	<b>संतरा (संगतरा)</b>	santrā (saṅgatrā)	orange (fruit)	n.m.
14	<b>संतुलन</b>	santulan	équilibre	n.m.
18	<b>संतुष्ट</b>	santuṣṭa	content, satisfait	adj.
3	<b>संदूक</b>	sandūk	coffre, caisse, malle	n.m.
21	<b>संदेश</b>	sandeś	message, missive	n.m.
13	<b>संपत्ति</b>	sampatti	propriété, possession, richesse	n.f.
22	<b>संपन्न</b>	sampanna	prospère	adj.
Fam.	<b>संबंध</b>	sambandha	relation	n.m.
23	<b>संभलना</b>	sambhalanā	se relever, être vigilant	vb. int.
18	<b>संयंत्र</b>	sanyantra	appareil	n.m.
23	<b>सभालना</b>	sambhālanā	contrôler, maîtriser	vb. tr.
18	<b>संभव</b>	sambhava	possible, probable	adj.
18	<b>संभवत</b>	sambhavat	peut-être	adv.
18	<b>संभावना</b>	sambhāvanā	possibilité, probabilité	n.f.
15	<b>संसद</b>	sansad	parlement, société, assemblée	n.f.
13	<b>संसार</b>	sansār	monde, univers	n.m.
14	<b>संस्था</b>	sansthā	institution, organisation	n.f.
18	<b>सख्त</b>	sakhta	dur, rigide, solide, sévère	adj.
18	<b>सख्ती</b>	sakhtī	dureté, fermeté, austérité, rigueur	n.f.
13	<b>सगाई</b>	sagai	relation, lien, fiançailles	n.f.
8	<b>सचमुच</b>	sacmuc	vraiment, réellement	adv.
18	<b>सच्चाई</b>	saccāī	vérité	n.f.
12	<b>सजना</b>	sajnā	être orné, se vêtir, se parer	vb. int.

14	<b>सजना धजना</b>	sajnā dhajnā	tirer à 4 épingle, maquiller, parer	vb. tr.
12	<b>सजाना</b>	sajānā	orner, décorer, parer, équiper	vb. tr.
12	<b>सजावट</b>	sajāvat	décoration, ornementation	n.f.
19	<b>सट्टेबाजी</b>	sattebāzī	spéculation	n.f.
8	<b>सङ्क</b>	sarṅk	route, voie, chemin	n.f.
15	<b>सङ्ना</b>	sarṇa	pourrir	vb. int.
8	<b>सङ्सठ</b>	sarsaṭh	soixante sept	nombre 067
9	<b>सतहत्तर</b>	satahattar	soixante dix-sept	nombre 077
14	<b>सताना</b>	satānā	tourmenter, tracasser	vb. tr.
9	<b>सतासी</b>	satāsī	quatre-vingt sept	nombre 087
8	<b>सत्तर</b>	sattar	soixante dix	nombre 070
3	<b>सत्ताईस</b>	sattāīs	vingt sept	nombre 027
10	<b>सत्तानवे</b>	satrānave	quatre-vingt dix-sept	nombre 097
7	<b>सत्तावन</b>	sattāvan	cinquante sept	nombre 057
21	<b>सत्यानाश</b>	satyānāś	destruction totale	n.m.
2	<b>सत्रह</b>	satrah	dix-sept	nombre 017
14	<b>सपना</b>	sapnā	rêve, illusion	n.m.
14	<b>सपना देखना</b>	sapnā dekhnā	rêver	vb. tr.
14	<b>सप्तपदी</b>	saptapadī	les sept pas autour du feu (mariage)	n.f.
20	<b>सप्ताह</b>	saptāha	semaine	n.m.
20	<b>सप्ताहिक</b>	saptāhik	hebdomadaire	adj.
6	<b>सफर</b>	safar	voyage	n.m.
14	<b>सफल</b>	saphal	réussi / efficace	adj.
7	<b>सफेद</b>	safed	blanc	adj.
1	<b>सब</b>	sab	tout, entier	adj.
17	<b>सबर</b>	sabar	patience, endurance	n.m.
8	<b>सब्जी</b>	sabzī	légume	n.f.
17	<b>सब्र</b>	sabra	patience, endurance	n.m.

4	<b>सभी</b>	sabhī	tous	adj.
4	<b>समझ</b>	samajh	intelligence, compréhension	n.f.
4	<b>समझदार</b>	samajhdār	intelligent, compréhensif	adj.
5	<b>समझना</b>	samajhnā	comprendre	vb. tr.
5	<b>समझाना</b>	samjhānā	expliquer, faire comprendre	vb. tr.
5	<b>समय</b>	samay	temps, moment, époque	n.m.
23	<b>समर्थ</b>	samarth	capable, compétent, énergique	adj.
20	<b>समर्थक</b>	samarthak	partisan, défenseur, tenant	n.m.
20	<b>समर्थन</b>	samarthan	soutien, défense, approbation	n.m.
11	<b>समस्या</b>	samasyā	problème, part. de compos. prosodique	n.f.
9	<b>समाचार पत्र</b>	samācār-patra	journal	n.m.
11	<b>समाज</b>	samāj	société, communauté	n.m.
14	<b>समाजवाद</b>	samājvād	socialisme	n.m.
14	<b>समाजवादी</b>	samājvādī	socialiste	n.m.
16	<b>समाधान</b>	samādhān	méditation, solution, méthode	n.f.
9	<b>समाप्त</b>	samāpta	fini, terminé, achevé	adj.
17	<b>समाप्त करना</b>	samāpta karnā	achever, terminer	vb. tr.
17	<b>समाप्त होना</b>	samāpta honā	être terminé	vb. int.
9	<b>समाप्ति</b>	samāpti	fin, conclusion	n.f.
1	<b>समोसा</b>	samosā	samosa	n.m.
6	<b>सर</b>	sar	tête	n.m.
3	<b>सरकार</b>	sarkār	gouvernement, administration	n.f.
3	<b>सरकारी</b>	sarkārī	gouvernemental, public	adj.
14	<b>सर-दर्द</b>	sar-darda	mal de tête, migraine	n.m.
13	<b>सरदियों का मौसम</b>	sardiyō kā mausam	saison froide (hiver)	n.m.
7	<b>सरसों</b>	sarsō	graine de moutarde	n.f.
17	<b>सरासर</b>	sarāsar	entièlement, d'un bout à l'autre	adv.
4	<b>सर्दी</b>	sardī	hiver, froid	n.f.

13	<b>सर्वाधिक</b>	sarvādhik	prépondérant, proéminent, le plus	adj.
Fam.	<b>सलहज</b>	salahaj	belle-sœur (femme du frère de l'épouse)	n.f.
7	<b>सलेटी</b>	saletī	gris	adj.
8	<b>सवा</b>	savā (invariable)		adj.
11	<b>सवाल</b>	savāl	question, demande, problème	n.m.
10	<b>सवेरा</b>	saverā	matin, lever du jour	n.m.
13	<b>ससता</b>	sastā	bon marché, ordinaire	adj.
Fam.	<b>ससुर</b>	sasur	beau-père (père du mari ou épouse)	n.m.
23	<b>सहना</b>	sahanā	endurer, supporter	vb. tr.
22	<b>सहमत</b>	sahamat	agrément, consenti	adj.
22	<b>सहमति</b>	sahamati	consentement	n.f.
14	<b>सहर</b>	sahar	aube, lever du jour	n.f.
23	<b>सहायता</b>	sahāyatā	aide, soutien, assistance	n.f.
14	<b>सहेली</b>	sahelī	amie, femme	n.f.
6	<b>साँड़</b>	sāṛ	taureau	n.m.
14	<b>साक्षी</b>	sākṣī	témoin	n.m.
23	<b>सागर</b>	sāgar	océan	n.m.
7	<b>साठ</b>	sāṭh	soixante	nombre 060
Fam.	<b>साठू</b>	sāṭhū	beau-frère (mari de la sœur de l'épouse)	n.m.
8	<b>साढ़े</b>	sāṛhe	demi	adj.
1	<b>सात</b>	sāt	sept	nombre 007
5	<b>सातवाँ</b>	07 sātvā̄	septième	nombre ord.
21	<b>साधारण</b>	sādhāraṇ	commun, ordinaire, usuel, simple	adj.
21	<b>साधारणीकरण</b>	sādhāraṇīkaraṇ	généralisation	n.m.
3	<b>साधू</b>	sādhū	sadhu	n.m.
12	<b>साफा</b>	sāfā	turban	n.m.
7	<b>साबुत</b>	sābut	entier, complet, intact	adj.
2	<b>सामने</b>	sāmne	devant, en face	adv.

18	<b>सामाजिक</b>	sāmājik	social	adj.
18	<b>सामाजिक</b>	sāmājik	membre d'une assemblée	n.m.
23	<b>समुद्र</b>	samudra	mer, océan	n.m.
3	<b>सारा</b>	sārā	tout, entier	adj.
4	<b>साल</b>	sāl	an, année	n.m.
21	<b>सालगिरह</b>	sāl-giraha	anniversaire	n.f.
Fam.	<b>साला</b>	sālā	beau-frère (frère de l'épouse)	n.m.
16	<b>सालाना</b>	sālānā	annuel	adj.
Fam.	<b>साली</b>	sālī	belle sœur (sœur de l'épouse)	n.f.
Fam.	<b>सास</b>	sās	belle-mère (mère du mari ou épouse)	n.f.
1	<b>साहब</b>	sāhab	monsieur, patron, maître	n.m.
15	<b>साहस</b>	sāhas	courage	n.m.
3	<b>साहिबा</b>	sāhibā	madame	n.f.
19	<b>सिंह</b>	sinha	lion, sous-caste de kṣatriya	n.m.
19	<b>सिंहासन</b>	sinhāsan	trône	n.m.
4	<b>सिखना</b>	sikhnā	étudier, apprendre	vb. tr.
4	<b>सिखाना</b>	sikhānā	enseigner, instruire	vb. int.
20	<b>सिद्धांत</b>	siddhānta	principe, théorie, doctrine	n.m.
20	<b>सिद्धांती</b>	siddhāntī	théorique, dogmatique	adj.
5	<b>सिर्फ़</b>	sirf	seulement, uniquement	adv.
9	<b>सीटी</b>	śāṭī	sifflet, coup de sifflet	n.f.
2	<b>सीधा</b>	sīdhā	droit, gentil, sage	adj.
23	<b>सिपाही</b>	sipāhī	gendarme, soldat	n.m.
17	<b>सीमा</b>	sīmā	frontière, limite	n.f.
16	<b>सीमित</b>	sīmit	limité	adj.
6	<b>सुअर</b>	suar	porc, sanglier	n.m.
15	<b>सुखाना</b>	sukhānā	faire sécher	vb. tr.
23	<b>सुझाव</b>	sujhāv	suggestion, proposition	n.m.

14	<b>सुधार</b>	sudhār	amélioration, réforme, modification	n.m.
20	<b>सुधारक</b>	sudhārak	réformateur	n.m.
20	<b>सुधारना</b>	sudhārnā	réformer, améliorer, modifier, corriger	vb. tr.
14	<b>सुधारवाद</b>	sudhārvād	réformisme	n.m.
14	<b>सुधारवादी</b>	sudhārvādī	réformiste	adj., n.m.
3	<b>सुनना</b>	sunnā	entendre, écouter	vb. tr.
17	<b>सुनवाना</b>	sunvānā	faire réciter, faire raconter	vb. tr.
7	<b>सुनहरा</b>	sunharā	doré, d'or, brillant	adj.
11	<b>सुनाई</b>	sunāī	audition	n.f.
11	<b>सुनाई देना (किसी को)</b>	sunāī denā (kisī ko)	s'entendre, être audible (pas de erg.)	vb. tr.
3	<b>सुनाना</b>	sunānā	faire entendre, réciter, raconter	vb. tr.
10	<b>सुनार</b>	sunār	orfèvre, bijoutier	n.m.
2	<b>सुन्दर</b>	sundar	beau	adj.
2	<b>सुन्दरता</b>	sundartā	beauté	n.f.
4	<b>सुबह</b>	subah	matin, aurore	n.f.
17	<b>सुरक्षा</b>	surakṣā	sécurité	n.f.
17	<b>सुलवाना</b>	sulvānā	faire faire dormir	vb. tr.
17	<b>सुलाना</b>	sulānā	faire dormir	vb. tr.
22	<b>सुस्ताना</b>	sustānā	se reposer	vb. int.
21	<b>सुहाना</b>	suhānā	agréable, charmant, sympathique	adj.
15	<b>सूखना</b>	sūkhnā	sécher, être sec, se sécher	vb. int.
15	<b>सूखा</b>	sūkhā	sec, desséché	adj.
10	<b>सूचना</b>	sūchnā	information, notice, annonce	n.f.
10	<b>सूचित</b>	sūcit	informé	adj.
13	<b>सूरज</b>	sūraj	soleil	n.m.
4	<b>सूरत</b>	sūrat	forme, apparence, visage	n.f.
2	<b>से दूर</b>	se dūr	loin de	post pos.
5	<b>से पहले</b>	se pahale	avant	post pos.

4	<b>सेकना</b>	seknā	rôtir, griller, chauffer	vb. tr.
16	<b>सेठ</b>	seth	homme riche, riche commerçant	n.m.
12	<b>सेब</b>	seb	pomme	n.m.
12	<b>सेहरा</b>	seharā	décoration florale pour la tête du marié	n.m.
5	<b>सैंतालीस</b>	saintalīs	quarante sept	nombre 047
4	<b>सैंतीस</b>	saintīs	trente sept	nombre 037
20	<b>सैद्धान्तिक</b>	saiddhāntik	théorique	adj.
10	<b>सैनिक</b>	sainik	soldat	n.m.
6	<b>सैर</b>	sair	promenade, excursion	n.f.
7	<b>सौंठ</b>	sonth	gingembre séché	n.f.
3	<b>सोने का कमरा</b>	sone ka kamra	chambre à coucher	n.m.
3	<b>सोफा</b>	sofā	canapé	n.m.
5	<b>सोमवार</b>	(1) somvār	lundi (jour de la lune)	n.m.
2	<b>सोलह</b>	solah	seize	nombre 016
10	<b>सौ</b>	sau	cent	nombre 100
17	<b>सौंप देना (सौंपना)</b>	saump denā (saumpnā)	donner, confier	vb. tr.
7	<b>सौफ़</b>	saumf	anis	n.f.
Fam.	<b>सौतेली भाई</b>	sautelā bhāī	demi-frère	n.m.
Fam.	<b>सौतेली माँ</b>	sautelī mā̄	belle-mère (seconde épouse du père)	n.f.
21	<b>सौदा</b>	saudā	marchandise, provision	n.m.
21	<b>सौदा करना</b>	saudā karnā	négocier, marchander	vb. tr.
21	<b>सौदागर</b>	saudāgar	marchand	n.m.
21	<b>सौदागरी</b>	saudāgarī	commerce	n.f.
13	<b>स्तब्ध</b>	stabdha	stupéfait, étonné, surpris	adj.
3	<b>स्त्री</b>	strī	femme, épouse	n.f.
19	<b>स्थल</b>	sthāl	sol, terre, endroit, site	n.m.
19	<b>स्थान</b>	sthān	endroit, espace, site	n.m.
21	<b>स्थायी</b>	sthāyī	stable, permanent, durable, régulier	adj.

21	<b>स्थायी</b>	sthāyī	refrain (mus.)	n.m.
21	<b>स्थायीकरण</b>	sthāyikaraṇ	stabilisation, confirmation	n.m.
14	<b>स्थिति</b>	sthiti	position, situation, lieu, état	n.f.
18	<b>स्थिर</b>	sthir	ferme, stable, immobile, inflexible	adj.
20	<b>स्वचालित</b>	svacālit	automatique	adj.
14	<b>स्वतंत्र</b>	svatantra	libre, indépendant, autonome	adj.
14	<b>स्वतंत्रता</b>	svatantratā	liberté, indépendance, libération	n.f.
20	<b>स्वदेश</b>	svadeś	pays natal	n.m.
20	<b>स्वदेशी</b>	svadeśī	natif, autochtone, national, non importé	adj.
20	<b>स्वभाव</b>	svabhāva	nature, tempérament, disposition	n.m.
17	<b>स्वयं</b>	svayam	de soi-même	adv.
20	<b>स्वराज</b>	svarāj	indépendance, autonomie	n.m.
18	<b>स्वर्ग</b>	svarga	paradis	n.m.
6	<b>स्वागत</b>	svāgat	bienvenue, accueil	n.m.
6	<b>स्वागत करना (किसी का)</b>	svāgat karnā (kisī kā)	accueillir, souhaiter la bienvenue	vb. tr.
19	<b>स्वाद</b>	svād	goût, saveur	n.m.
19	<b>स्वाद चखना (का)</b>	svād cakhnā (kā)	goûter, essayer	vb. tr.
19	<b>स्वाद चखाना (किसी को)</b>	svād cakhānā (kisī ko)	se venger de, rendre la monnaie de sa pièce à	vb. tr.
19	<b>स्वाद पड़ना (किसी को X का)</b>	svād parñā (kisī ko X kā)	prendre goût à X, s'adonner à X	vb. int.
19	<b>स्वाद लेना (का)</b>	svād lenā (kā)	goûter, savourer, déguster	vb. tr.
19	<b>स्वादिष्ट</b>	svādiṣṭa	savoureux, délicieux	adj.
21	<b>स्वाधीन</b>	svādhīn	indépendant, libre, sans entrave	adj.
21	<b>स्वाधीनता</b>	svādhīntā	indépendance	n.f.
13	<b>स्वास्थ्य</b>	svāsthya	santé	n.m.
19	<b>स्वीकार</b>	svīkār	acceptation, approbation	n.m.
19	<b>स्वीकार करना</b>	svīkār karnā	accepter, reconnaître, admettre	vb. tr.
19	<b>स्वीकार होना (किसी को)</b>	svīkār honā (kisī ko)	accepter, approuver	vb. int.
8	<b>हँसना</b>	hāsnā	rire, plaisanter	vb. int.

8	हँसाना	hāsānā	faire rire	vb. tr.
2	हँसी	hāsī	rire, plaisanterie	n.f.
15	हंगामा	haṅgāmā	tumulte, désordre, chahut	n.m.
22	हट्टा-कट्टा	hattā-kattā	robuste	adj.
10	हजार	hazār	mille	nombre 1000
18	हटाना	haṭānā	écartier, éloigner	vb. tr.
18	हडताल	haṛṭāl	grève, interruption du travail	n.f.
9	हड्डी	haḍḍī	os	n.f.
15	हताश	hatāś	désespéré	adj.
15	हताशा	hatāśā	désespoir, découragement, abattement	n.f.
15	हत्या	hatyā	meurtre, assassinat	n.f.
15	हत्यारा	hatyārā	meurtrier	n.m.
14	हथियार	hathiyār	arme	n.m.
16	हथौडा	hathaurā	marteau	n.m.
17	हद	had	limite	n.f.
5	हफ्ता	haftā	semaine	n.m.
1	हम	ham	nous (parfois je) (pluriel)	pron. pers.
22	हमउम्र	ham-umr	du même âge	adj.
22	हमकंदम	hamqadam	camarade	adj./n.m.
22	हमदर्द	hamdard	qui partage la peine	adj.
22	हमदर्दी	hamdardī	compassion, sympathie	n.f.
22	हममज्जहब	hamamazab	coreligionnaire	adj./n.m.
22	हमवतन	hamavatan	compatriote	adj./n.m.
22	हमसफर	hamasafar	compagnon de voyage	n.m.
4	हमेशा	hameśā	toujours	adv. tps.
6	हर	har	chaque, chacun	adj.
23	हरगिज़	hargiz nahī	jamais	adv.
7	हरा	harā	vert, frais	adj.

16	हल	hal	solution, calcul	n.m.
7	हलका	halkā	clair, pâle, léger, fin, moindre	adj.
1	हलवा	halvā	halva	n.m.
7	हल्दी	haldī	curcuma	n.f.
23	हवलदार	havaladār	commissaire de police	n.m.
13	हवा	havā	vent, air	n.f.
19	हवा करना	havā karnā	faire du vent, éventer, ventiler	vb. tr.
19	हवा का रुख	havā kā rukh	direction du vent	n.m.
19	हवा के घोड़े पर सवार होना	havā ke ghore par savār honā	être sur un nuage, au septième ciel	vb. int.
19	हवा खाना	havā khānā	prendre l'air, faire un tour	vb. tr.
19	हवा चल रही है	havā cal rahī hai	il y a du vent	vb. int.
19	हवा पलटना	havā palatnā	tourner, changer (prp. & fig.)	vb. int.
19	हवा फिरना	havā phirnā	tourner, changer (prp. & fig.)	vb. int.
19	हवा बदलना	havā badalnā	tourner, changer (prp. & fig.)	vb. int.
19	हवा हो जाना	havā ho jānā	disparaître, filer, s'enfuir	vb. int.
19	हवाई	havāī	aérien	adj.
19	हवादार	havādār	aéré	adj.
22	हाजिर	hāzir	présent	adj.
22	हाजिरी	hāzirī	présence	n.f.
17	हाँडी (हँडिया)	hāḍī (hāḍiyā)	marmite	n.f.
9	हाथ	hāth	main, avant-bras, poignée	n.m.
6	हाथी	hāthī	éléphant	n.m.
12	हादसा	hādsā	accident	n.m.
7	हाल	hāl	état, condition, situation	n.m.
21	हाल में	hāl mē	récemment	adv. tps.
21	हालत	hālat	condition, situation, état	n.f.
14	हालाँकि	hālā̄ki	bien que, quoique	adv.
12	हासील	hāsil	acquis, obtenu	adj.

1	हिंद	hind	Inde	n.m.
1	हिंदुस्तान	hindustān	Inde	n.m.
1	हिंदुस्तानी	hindustānī	indien	adj.
1	हिंदुस्तानी	hindustānī	hindoustani (la langue)	n.f.
1	हिंदुस्तानी	hindustānī	indien (habitant l'Inde)	n.m.
1	हिंदू	hindū	hindou	adj.
1	हिंदू	hindū	un hindou	n.m.
14	हिंसा	himsā	violence, agressivité	n.f.
21	हित	hit	bienfaisance, gain, bénéfice, intérêt	n.m.
21	हितकर	hitkar	bienfaiteur	n.m.
21	हितकर	hitkar	utile	adj.
21	हितकारी	hitkārī	bienfaiteur	adj., n.m.
1	हिन्दी	hindī	le hindi (la langue)	n.f.
19	हिम	him	neige, glace	n.m.
19	हिमालय	himālaya	Himalaya	n.m.
15	हिम्मत	himmat	courage	n.f.
9	हिसाब	hisāb	arithmétique, calcul, compte	n.m.
9	हिसाब जोड़ना	hisāb jōrnā	calculer	vb. tr.
9	हिसाब बंद करना	hisāb band karnā	clore les comptes	vb. tr.
9	हिसाब रखना	hisāb rakhnā	tenir les comptes	vb. tr.
7	हींग	hīg	asafœtida	n.f.
14	हीरा	hīrā	diamant	n.m.
13	हैरान	hairān	étonné, surpris, fatigué	adj.
11	हैरानी	hairānī	étonnement, surprise	n.f.
9	होँठ	hoṇṭh	lèvre	n.m.
19	होशियार	hośiyār	habile, intelligent, consciencieux	adj.